



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5, 1966 (कार्तिक 14, 1888)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5, 1966 (KARTIKA 14, 1888)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## नोटिस

## NOTICE

नीचे लिखे भारत के अनाधारण गजपत्र 19 अक्टूबर 1966 तक प्रकाशित किये गये :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 19th October, 1966 :—

अक्ष Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
181	No. 137-ITC (PN)/66, dt. 15-10-66.	Min. of Commerce	Imports from the U.S.A. under AID Non-Project Loan 1966.
182	No. 138-ITC (PN)/66, dt. 17-10-66.	Do.	Import of X-Ray films (Sr. No. 302/IV)-refixation of selling price consequent on devaluation of Rupee—April 1966— March 1967.
183	No. 12/35/65-E. Pty., dt. 19-10-66.  No. 12/24/65-E. Pty., dt. 19-10-66.	Do.	Revesting of Pakistani ship OCEAN ENTERPRISE to its owners.  Revesting of Pakistani ship AL HASSAN to its owners.

ऊपर लिखे अनाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, मिविल न्याइंस, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएँगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी चंते की नारीब में दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

## विषय सूची (CONTENTS)

पृष्ठ (Pages)	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों तथा उच्चतम स्तरात्मक द्वारा जारी की गई विधीनर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और सकल्पों गे संबंधित अधिसूचनाएँ .. .. .. 715	भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएँ .. .. ..
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों तथा उच्चतम स्तरात्मक द्वारा जारी की गई भरकारी अफसरों का नियुक्तियों, पदान्वतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएँ .. .. .. 987	भाग I—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदान्वतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएँ 661
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .. .. .. .. ..	भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .. .. .. .. ..
भाग II—खंड 2—विधेयक आदि विधेयकों संबंधी प्रबन्ध नियमों की रिपोर्ट .. .. .. —	भाग II—खंड 2—विधेयक आदि विधेयकों संबंधी प्रबन्ध नियमों की रिपोर्ट .. .. .. —

पार्ट (Pages)	पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को शोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि शामिल हैं) .. .	1869
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .. .	2993
भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .. .	301
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, मंष-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..	749
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .	—
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .	—
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence .. .	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence ..	661
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, by-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1869
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2993
भाग III—खंड 2—एकस्थ कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	407
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्ता द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	145
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिव अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	889
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	219
पूरक सं० 45—	—
29 अक्टूबर 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	1563
8 अक्टूबर 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आवादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	1575
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	301
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	749
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	407
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	145
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	889
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	219
SUPPLEMENT No. 45—	—
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 29th October 1966 ..	1563
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 8th October 1966 ..	1575

## भाग I—खण्ड 1

## PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की नहीं विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

**Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court**

## राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 1966

मं. 76-प्रेज़/66—राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री को सेनाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रेषणों में उल्लिखित निम्नांकित अधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के नामों को भारतीय राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है :—

कच्छ तथा भारत-पाक सीमा पर 1965 की संक्रियाएँ  
आरम्भ कोर

- 1 ब्रिगेडियर स्वर्ण सिंह जसपाल (आई० सी०-1096), 3 केवलरी
- 2 ब्रिगेडियर विश्व नाथ सरकार (आई० सी०-1417)/ सेन्ट्रल इंजिन्योर्स हार्स
- 3 कर्नल भरत सिंह (आई० सी०-1777), 9 हार्स
- 4 से० कर्नल जयवन्त प्रकाश राम दलवी (आई० सी०-3223), 8 केवलरी
- 5 से० कर्नल हरि सिंह (आई० सी०-5689), 18 केवलरी
- 6 मेजर सतीन्द्र वर्मा (आई० सी०-7755), 2 लान्सर्स
- 7 मेजर गुरदेव सिंह बलेर (आई० सी०-5340), 18 केवलरी
- 8 मेजर भीष्म ओहरी (आई० सी०-1290), 14 हार्स
- 9 मेजर परदुमन सिंह (आई० सी०-2236), 62 केवलरी
- 10 मेजर हरीदया कौल (आई० सी०-3941), 2 लान्सर्स
- 11 मेजर कृष्ण लाल दुग्गल (आई० सी०-4011), 4 हार्स
- 12 मेजर शिवराज सिंह (आई० सी०-5085), 17 हार्स
- 13 मेजर कंवर महाराजा कुमार सिंह बराच (आई० सी०-5105), 62 केवलरी
- 14 मेजर पद्मजीत सिंह (आई० सी०-6113), 3 केवलरी
- 15 मेजर रविन्द्रन माधवन (आई० सी०-7056), 16 केवलरी
- 16 मेजर राजपाल सिंह (आई० सी०-11210), 4 हार्स
- 17 मेजर सतीश चन्द्र राय दीवान (आई० सी०-5104), 9 हार्स
- 18 मेजर रेगिनाल्ड क्रिस्चियन (आई० सी०-4486), 18 केवलरी
- 19 मेजर नरिन्दर सिंह सन्धु (आई० सी०-6638), 3 केवलरी
- 20 मेजर वीरेन्द्र सिंह (आई० सी०-7322), पूना हार्स
- 21 कप्तान अजय सिंह (आई० सी०-7745), 17 हार्स

- 22 कप्तान सुरिन्दर सिंह (आई० सी०-10008), 17 हार्स
- 23 कप्तान अरुण कुमार गौतम (आई० सी०-10489), 16 केवलरी
- 24 कप्तान रोबिन्द्र दीवान (आई० सी०-11575), 16 केवलरी
- 25 कप्तान कंवरजीत सिंह आनन्द (आई० सी०-11878), 2 लान्सर्स
- 26 कप्तान करमपाल सिंह मिढ़ू (आई० सी०-12120), 62 केवलरी
- 27 कप्तान जोगिन्दर पाल सिंह (आई० सी०-12512), 16 केवलरी
- 28 कप्तान रवि मल्होत्रा (आई० सी०-13881), 4 हार्स
- 29 कप्तान थोक्सीयंकट्टू बीतिल प्रानन चन्द्रन (आई० सी०-13856), 3 केवलरी
- 30 कप्तान जसबीर सिंह कंवर (आई० सी०-13072), 17 हार्स (मरणोपरान्त)
- 31 2/लिफ्टनेंट कुलदीप सिंह (आई० सी०-14478), 20 लान्सर्स
- 32 2/लिफ्टनेंट विनय कायस्थ (आई० सी०-16043), 16 केवलरी (मरणोपरान्त)
- 33 2/लिफ्टनेंट विजय कुमार कपूर (आई० सी०-15861), 17 हार्स
- 34 2/लिफ्टनेंट सुवीर चन्द्र माथूर (ई० सी०-56557), 4 हार्स
- 35 2/लिफ्टनेंट अजिन्दर सिंह बाल (आई० सी०-13916), 9 हार्स
- 36 2/लिफ्टनेंट कीर्ति कुमार ककड़ (ई० सी०-50851), 9 हार्स
- 37 2/लिफ्टनेंट राम प्रकाश जोशी (ई० सी०-54116), 3 केवलरी
- 38 2/लिफ्टनेंट तेजिन्द्र सिंह शेरगिल (आई० सी०-15786) 9 हार्स
- 39 जे० सी०-6265 रिसालदार गजिन्दर सिंह, 17 हार्स
- 40 जे० सी०-15054 रिसालदार चंचल सिंह, 9 हार्स
- 41 जे० सी०-55617 रिसालदार रतन सिंह, 9 हार्स
- 42 जे० सी०-4711 रिसालदार जगत सिंह, 3 केवलरी
- 43 जे० सी०-497 रिसालदार प्यारे लाल, 17 हार्स
- 44 जे० सी०-6273 रिसालदार कुन्दन सिंह, 4 हार्स
- 45 जे० सी०-27040 नायब रिसालदार शंमुगम, 16 केवलरी (मरणोपरान्त)

46	1004568	नायब रिसालदार आर० मर्यै- नागयण, 16 केवलरी
47	जे० सी०-22738	नायब रिसालदार अमर सिह, 2 लान्सर्स
48	जे० सी०-21524	नायब रिसालदार मुल्तान मिह, 62 केवलरी
49	जे० सी०-25327	नायब रिसालदार विजय पाल मिह, 9 हार्स
50	जे० सी०-16048	नायब रिसालदार चन्द्र भान, 3 केवलरी
51	जे० सी०-21525	नायब रिसालदार मुचेत मिह, 4 हार्स
52	एन० वाई० ए०	नायब रिसालदार जग्नेल मिह, 4 हार्स
53	जे० सी०-25331	नायब रिसालदार सूरत मिह, 4 हार्स (मरणोपरान्त)
54	जे० सी०-12044	नायब रिसालदार उम्मेद सिह, 18 केवलरी
55	1009041	दफादार जसमेर सिह, 4 हार्स
56	1129590	दफादार लखू गिह, 18 केवलरी
57	1016839	दफादार राजेश गिह, 18 केवलरी (मरणोपरान्त)
58	1017025	दफादार एम० एम० पूअर्पा, 16 केवलरी (मरणोपरान्त)
59	1019813	दफादार बलवान सिह, 17 हार्स
60	7015630	दफादार जगदीश लाल, 4 हार्स
61	1011697	दफादार राज सिह, 3 केवलरी
62	1009683	दफादार मोहन लाल, मेन्ट्रल इंडिया हार्स
63	8543355	दफादार एस० डी० आशीर्वादन, 9 हार्स
64	1023689	लास/दफादार पबदत मिह, 17 हार्स
65	1027016	लास/दफादार मूबे मिह, 17 हार्स
66	1022630	लास/दफादार प्रल्लाद मिह, 9 हार्स
67	1017332	लास/दफादार दयानन्द मिह, 3 केवलरी
68	1019545	लास/दफादार जन मिह, 3 केवलरी
69	1022499	लास/दफादार भंवर मिह, 20 लान्सर्स
70	1022961	ए०/लास/दफादार बखशीष मिह रक्कड़, 9 हार्स
71	1026939	ए०/लास/दफादार गुरदेव मिह, 7 केवलरी
72	1033094	सवार जगदीश चन्द्र, 4 हार्स
73	1033835	सवार शक्ति चन्द्र, 4 हार्स
74	1026816	सवार त्रिलोक मिह, 17 हार्स
75	1027736	सवार रघवीर मिह, 17 हार्स
76	7030681	क्राफ्टस्मैन जसवन्त मिह, 16 केवलरी
77	1023867	सवार प्रीतम सिह, 4 हार्स
78	1032868	गनर रघुबीर मिह, 18 केवलरी
79	7047911	क्राफ्टस्मैन जनार्दन गिरगुने 9 हार्स
80	1033868	सवार अनूप सिह, 9 हार्स
81	1034550	सवार सुकन्द मिह, 9 हार्स
82	1025477	सवार मोहन मिह, 9 हार्स

## आर्टिस्ट रेजिस्टर

83	1023213	सवार ओम प्रकाश मिह, 3 केवलरी
84	1024103	सवार माना दीन, 3 केवलरी
85	1028753	सवार धीरपाल सिह, 3 केवलरी
86	1024136	सवार अमर सिह, 9 हार्स
87	1032677	सवार नानक चन्द्र, 9 हार्स
88	1026095	सवार मोहन सिह, 20 लान्सर्स
89	1033545	सवार कुशाल सिह, 20 लान्सर्स
90	1024387	सवार चन्द्रल मिह, 4 हार्स
91	1029366	सवार कुलदीप मिह, 9 हार्स
92	ब्रिगेडियर ओम देव गुप्ता, (आई० सी०-579)	
93	ब्रिगेडियर ब्रिज भृपण भट्टनागर (आई० सी०-2709)	
94	ब्रिगेडियर भूरत मिह (आई० सी०-2712)	
95	ब्रिगेडियर जेम्स ब्लाट्स इलियट फिलैल (आई० सी०-2732)	
96	ब्रिगेडियर झंडा मिह संद्धु (आई० सी०-635)	
97	ब्रिगेडियर ओम प्रकाश मल्होत्रा (आई० सी०-478)	
98	ब्रिगेडियर गुरबक्ष मिह गिल (आई० सी०-560)	
99	ब्रिगेडियर माहिव्र सिह कलहा (आई० सी०-406)	
100	लेपिटनेट कर्नल कुन्हीराम वेणुगोपाल (आई० सी०-4334), बीर चक्र	
101	लेपिटनेट कर्नल हुगबक्स मिह मिहोता (आई० सी०-2538)	
102	लेपिटनेट कर्नल कृष्णन नारायणन पन्डालई (आई० सी०-2069)	
103	लेपिटनेट कर्नल जंगजीत सिह बावा (आई० सी०-730)	
104	मेजर केशिव चन्द्र दत्ता (आई० सी०-5146)	
105	मेजर अृषि देव दत्ता (आई० सी०-4496)	
106	मेजर रवीन्द्र नाथ उमसत (आई० सी०-4220)	
107	मेजर गजेन्द्र मिह चौधरी (आई० सी०-8099)	
108	मेजर अशोक कुमार गौड (आई० सी०-10083)	
109	मेजर सरण प्रशाद (प्राई० सी०-4841)	
110	मेजर कुंवर मवाई मिह शेखावत (टी० ए०-40384)	
111	मेजर धनबन्द निह बहल (आई० सी०-4842)	
112	मेजर केशरी मिह (आई० सी०-7249)	
113	मेजर धर्म पाल बहल (आई० सी०-7366)	
114	मेजर कैलाश नाथ गंजू (आई० सी०-12037)	
115	मेजर कुरुस मितोचर बेबीकौन (टी० ए०-40304)	
116	मेजर कृष्ण मिह (आई० सी०-6034)	
117	मेजर वीरेन्द्र मिह (आई० सी०-5342)	
118	मेजर गिरधारी लाल गंजू (आई० सी०-7286)	
119	मेजर मदन मोहन लाल सहगल (आई० सी०-8186)	
120	मेजर नरेन्द्र नाथ रावत (आई० सी०-6451)	
121	मेजर कृष्ण मोती गाम चन्द्र (आई० सी०-7823)	
122	मेजर हृदय नारायण मनोचा (आई० सी०-4455)	
123	कप्तान मनजीत सिह रीन (आई० सी०-12439)	
124	कप्तान हरनाम ग्रोवर (आई० सी०-12483)	
125	कप्तान सतीश चन्द्र मगोत्रा (आई० सी०-13265)	
126	कप्तान देव करण खोला (आई० सी०-15574) (मरणो-परान्त)	

127	कप्तान दाता राम (आई० सी०-15552)	176	1144051	हवलदार नौरंग लाल
128	कप्तान हुण कुमार मित्तन (आई० सी०-12331)	177	1154848	हवलदार शोम प्रकाश
129	कप्तान हरचरण मिह चौधरी (आई० सी०-11078)	178	1132977	हवलदार मोहिन्द्र मिह (मरणोपरान्त)
130	कप्तान अजीत सिंह यादव (आई० सी०-12378)	179	1132124	हवलदार दोराय स्वामी
131	कप्तान हृदयका मोहन राव (आई० सी०-13781)	180	1132180	हवलदार राम लखन सिंह
132	कप्तान कृष्ण भगवान सिंह गिल (आई० सी०-15557)	181	3342274	हवलदार निर्मल सिंह
133	कप्तान रविन्द्र सिंह ग्रेवाल (ई० सी०-51410)	182	1142113	हवलदार एम० कल्पित्या
134	कप्तान रवि कुमार लंगर (आई० सी०-11113)	183	1144074	हवलदार श्रीनिवास अमीन
135	कप्तान केशवपिले नीलकंठ भारगवन नायर (ई० सी०-55954)	184	1206272	लांस/हवलदार मंगल सिंह (मरणोपरान्त)
136	कप्तान अजमेर सिंह (आई० सी०-53671)	185	3336858	लांस/हवलदार सविन्द्र सिंह
137	कप्तान गुरनाम सिंह (एस० एल०-271)	186	1130815	नायक (डाइवर ओ० पी०) डी० अमृष्मण
138	कप्तान हरचरण सिंह धत्त (ई० सी०-51837)	187	1144065	नायक गजगोपालन
139	कप्तान फिलिप सेलवा मनोहरन छेन्निया (आई० सी०-14205)	188	1154750	नायक ननकू राम (मरणोपरान्त)
140	कप्तान गुरबक्ष सिंह सिंहोता (आई० सी०-15741)	189	1129098	नायक हरबन्स सिंह
141	कप्तान प्रभाकर त्रियम्बक पाटिल (ई० सी०-56783)	190	1144088	नायक सज्जन सिंह
142	कप्तान हरबन्स सिंह (आई० सी०-13181)	191	1143578	नायक टी० टी० कृष्णामृत
143	लेपिटनेंट स्वतन्त्र कुमार मेदीरत्ता (आई० सी०-15469)	192	1158016	नायक रामशंकर मिह
144	लेपिटनेंट कुलदीप सिंह थापा (आई० सी०-15545)	193	1140623	नायक (अब हवलदार) के० वी० उल्हूनन
145	लेपिटनेंट वरिन्द्र सच्चर (आई० सी०-15525)	194	1118483	नायक करम मिह
	(मरणोपरान्त)	195	1149742	नायक शंकर इमाई
146	लेपिटनेंट मुदर्शन कुमार सूरी (आई० सी०-14008)	196	1142403	नायक पी० एन्थोनी
147	लेपिटनेंट धीरेन्द्र सिंह हाडा (आई० सी०-15578)	197	1162466	लांस नायक शेख इम्माइल
148	2/लेपिटनेंट यश पाल कौरा (आई० सी०-15738)	198	1142922	लांस नायक (ओ० डब्ल्यू० ए०) जसपाल सिंह (मरणोपरान्त)
149	2/लेपिटनेंट मुनीस्वामी महादेवन (ई० सी०-56727)	199	1148218	लांस नायक हरभजन सिंह
150	2/लेपिटनेंट जामीर सिंह (आई० सी०-15472)	200	1153702	लांस नायक रिष्पाल सिंह (मरणोपरान्त)
151	2/लेपिटनेंट महाराज सिंह (ई० सी०-59360)	201	1176245	लांस नायक कुंजी कृष्णन राजपन (मरणोपरान्त)
152	2/लेपिटनेंट मदाचिभपारा रवुषी दिनेशन (ई० सी०-53113)	202	1154250	लांस नायक धारेपा हत्तली
153	2/लेपिटनेंट गुरवरण सिंह रेखी (ई० सी०-56910)	203	1152743	लांस नायक शिव नायक मिह
154	2/लेपिटनेंट सुदेश मोहन बहल (ई० सी०-56168)	204	11088818	लांस नायक (ओ० डब्ल्यू० ए०) हुकम चन्द
155	2/लेपिटनेंट मिश्न नौसेरवां पंथकी (आई० सी०-15488)	205	1157518	लांस नायक नागभूषणम्
156	2/लेपिटनेंट जगदीश सिंह पहलवार (ई० सी०-56835)	206	1144784	लांस नायक अमरीक मिह
157	2/लेपिटनेंट अजीत चह्लाण (आई० सी०-15959)	207	3342580	लांस नायक मोहिन्द्र सिंह
158	2/लेपिटनेंट सुरिन्द्र मिह ओब्राय (ई० सी०-53345)	208	1149015	लांस नायक सकतर मिह
159	2/लेपिटनेंट सुदर्शन लाल दना (ई० सी०-52830)	209	1158676	गनर जसवीर मिह
160	जे० सी०-4525 सूबेदार मेजर गम सिंह	210	1174321	गनर अमर मिह
	(मरणोपरान्त)	211	1176562	गनर राम कृष्ण
161	जे० सी०-17335 सूबेदार हरवंश मिह	212	1165850	गनर रोहतास सिंह (मरणोपरान्त)
162	जे० सी०-4416 सूबेदार आर० एन० ए० उमर	213	1166297	गनर (टी० ए०) जङ्गाथ तिवारी
163	जे० सी०-6296 सूबेदार मरजीत सिंह	214	1192508	गनर नर्गीन चन्द (मरणोपरान्त)
164	जे० सी०-4019 सूबेदार राम सिंह	215	1196927	गनर जय भगवान (मरणोपरान्त)
165	जे० सी०-12532 सूबेदार दलीप सिंह	216	1190014	गनर (डाइवर) चन्द्रन
166	जे० सी०-14354 सूबेदार जयमल सिंह	217	1158856	डाइवर पाल सन्तरसिंह
167	जे० सी०-25777 नायब सूबेदार प्याम सिंह गुरुंग	218	1141528	वेटर मेस एल० दुर्घान
168	जे० सी०-28610 नायब सूबेदार के० माधवन नायर	219	1165875	गनर (ओ० डब्ल्यू० ए०) बलदेव राज
169	जे० सी०-17391 नायब सूबेदार बाबू सिंह	220	1216323	गनर (ओ० डब्ल्यू० ए०) नेत राम
170	जे० सी०-28514 नायब सूबेदार बाल कृष्ण	221	1219256	गनर (ओ० डब्ल्यू० ए०) राम अवध सिंह (मरणोपरान्त)
171	जे० सी०-32832 नायब सूबेदार जोगिन्द्र मिह	222	1190436	गनर (ओ० डब्ल्यू० ए०) पहाड़ राम
172	1136704 बटालियन हवलदार मेजर जे० एन्थोनी	223	1215377	गनर (ओ० डब्ल्यू० ए०) कंवन मिह
173	1151792 बटालियन हवलदार मेजर काहन मिह			
	(मरणोपरान्त)			
174	1130095 हवलदार गोविन्द माने			
175	9045607 हवलदार द्विलोक सिंह (मरणोपरान्त)			

- 224 11088450 गनर (ओ० डब्ल्य० ए०) बारी राम  
 225 11088978 गनर नन्द लाल  
 226 1160202 गनर (ओ० डब्ल्य० ए०) माधू मिह  
 227 1165623 गनर रनजीत सिह (मरणोपरान्त)

**इन्वेन्टरी**

- 228 लेपिटनेट कर्नल दलजीत सिह (आई० सी०-7242)  
 229 लेपिटनेट कर्नल नरिन्द्र लाल बेरी (आई०-सी०-2332)  
 230 लेपिटनेट कर्नल नन्द सरूप कुमार (आई० सी०-1685)  
 231 श्री हंस राज गुलाटी (एम० ई० एस०-25711)  
 232 मेजर गुरदयाल (आई० सी०-5087)  
 233 मेजर जोगिन्द्र मिह (आई० सी०-7693)  
 234 मेजर सुनन्दन कुमार (आई० सी०-8584)  
 235 मेजर एकनाथ बालकृष्ण जयवन्त (आई० सी०-6698)  
 236 कप्तान जमबीर सिह राय (ई० सी०-50933)  
 237 लेपिटनेट सुरेन्द्र कुमार भाटिया (आई० सी०-15031)  
 238 2/लेपिटनेट बैकट चलपति राव कौमम्बा (ई० सी०-56830)  
 239 2/लेपिटनेट अजमेर सिह (ई० सी०-54915)  
 240 2/लेपिटनेट द्वारिका दास अवरोल (ई० सी०-58385)  
 241 2/लेपिटनेट मुलाकुड़ी अरुनाचलम लक्ष्मण (ई० सी०-57514)  
 242 जे० सी०-34191 नायब सूबेदार पियारा सिह  
 243 जे० सी०-14723 नायब सूबेदार जय सिह घोरपडे  
 244 1319396 लास हवलदार गोविंदराजुलू  
 245 1421131 लास हवलदार हरि हर सिह  
 246 1321479 नायक चक्रवर्ती  
 247 1313716 नायक द्वाराहम  
 248 1322219 सैपर हरि दास

**सिगनल्स**

- 249 ब्रिगेडियर जसवन्त सिह (आई० सी०-433)  
 250 ब्रिगेडियर शावक नौसेवा अन्तिया (आई० सी०-2130)  
 251 लेपिटनेट कर्नल पल्लीथोडे कृष्णन उम्मी (आई० सी०-1919)  
 252 लेपिटनेट कर्नल सरदारी लाल जुनेजा (आई० सी०-1888)  
 253 लेपिटनेट कर्नल चन्द्र प्रकाश कटारिया (आई० सी०-4439)  
 254 मेजर रमेश भवानी शंकर बाबुलकर (आई० सी०-6588)  
 255 मेजर गुरवियाल सिह (आई० सी०-1907)  
 256 मेजर इन्द्र मोहन छाबड़ा (आई० सी०-4491)  
 257 कप्तान सुभाष कुमार दत्ता (आई० सी०-13593)  
 258 2/लेपिटनेट सुरेश चन्द्र दीवान (ई० सी०-51686)  
 259 2/लेपिटनेट भुपिन्द्र सिह (ई० सी०-59059)  
 260 2/लेपिटनेट मन मोहन (ई० सी०-59007)  
 261 2/लेपिटनेट कन्दास्वामी बेलुस्वामी (आई० सी०-15375)  
 262 2/लेपिटनेट कुरियन जौसफ (ई० सी०-54961)  
 263 2/लेपिटनेट प्रीतम सिह परमार (ई० सी०-54876)  
 264 जे० सी०-57478 सूबेदार मेजर एम० चिल्लया नैससन  
 265 जे० सी०-1065 सूबेदार मेजर प्रीतम सिह  
 266 जे० सी०-22368 सूबेदार हरमन्स लाल रत्ना  
 267 जे० सी०-32485 नायब सूबेदार के० अप्पुकुट्टन नायर  
 268 जे० सी०-23213 नायब सूबेदार करम सिह

- 269 जे० सी०-29365 नायब सूबेदार रामचन्द्र  
 270 6259238 हवलदार मनोहर दत्त  
 271 6250179 हवलदार हरबंश सिंह  
 272 6262889 लास हवलदार हमबीर राव पान्डुरंग  
 शिंदे

- 273 6241447 लास हवलदार एम० जौन  
 274 6256754 लास हवलदार गुरनाम मिह  
 275 6246397 लास हवलदार के० इमूमलाई  
 276 6245806 नायक वी० लिंगप्पन  
 277 6246437 नायक पी० केलन  
 278 6259397 नायक संसार चन्द  
 279 6263174 नायक रामेश्वर मिह  
 280 6272298 नायक के० नारायणन नायर  
 281 6266270 नायक चन्द्रशेखरन पिल्ले  
 282 6294485 यू०/लास नायक केसर सिह  
 283 6285045 यू०/लास नायक अमर सिह  
 284 6275328 यू०/लास नायक ई० वी० पान्डुरंगन  
 (मरणोपरान्त)

- 285 6319359 सिगनलमैन त्रिनाथ दाम  
 286 6290612 मिगनलमैन कौल बहारहार थापा

**इन्फैक्ट्री**

- 287 ब्रिगेडियर मन मोहन सिह (आई० सी०-3159)  
 288 ब्रिगेडियर नन्द किशोर लाल (आई० सी०-230)  
 289 ब्रिगेडियर प्रेमांगसु चौधरी (आई० सी०-902)  
 290 ब्रिगेडियर नरनंजन सिह (आई० सी०-852), एम० सी०  
 291 ब्रिगेडियर अवतार कृष्ण लूथरा (आई० सी०-1404), एम० सी०  
 292 ब्रिगेडियर प्रकाश सिह ग्रेवाल (आई० सी०-2039)  
 293 कर्नल इन्द्र सेठी (आई० सी०-3827), 1 गोरखा राईफल्स  
 294 कर्नल अनन्त महारुदरप्पा कडकोल (आई० सी०-1751),  
 ग्रेनेडियर्स  
 295 लेफ्टिनेट कर्नल मेंब सिह (आई० सी०-5682), वीर चक्र—गाईस  
 296 लेफ्टिनेट कर्नल जय मिह (आई० सी०-2141), गार्डस  
 297 लेफ्टिनेट कर्नल जोसफ इफराइम झिराद (आई० सी०-3861) 8 गढ़वाल राईफल्स (मरणोपरान्त)  
 298 लेफ्टिनेट कर्नल मोहिन्दर लाल हिंदग (आई० सी०-3940), 2/5 गोरखा राईफल्स  
 299 लेफ्टिनेट कर्नल सोराब पेसतोर्जिकुटकी (आई० सी०-2060), राजपूताना राईफल्स  
 300 लेफ्टिनेट कर्नल कृष्ण पिलाई पश्चानाभन नायर (आई० सी०-5586), राजपूत  
 301 लेफ्टिनेट कर्नल दविन्द्र नाथ सिह (आई० सी०-875), 9 महार  
 302 लेफ्टिनेट कर्नल एरलाम विलियम कारवाल्ह (आई० सी०-4711), 1 सिख एल० आई०  
 303 लेफ्टिनेट कर्नल फरहत भट्टी (आई० सी०-2343), 4 ग्रेनेडियर्स  
 304 लेफ्टिनेट कर्नल शंकर राव देमर्जी परब (आई० सी०-1695), 19 मराठा  
 305 मेजर आनन्द मोहन तिवारी (आई० सी०-1700), 2/1 गोरखा राईफल्स

- 306 मेजर सिरस आर्थर किंबन (आई० सी०-1719), 6  
गढ़वाल राईफल्स
- 307 मेजर अमरेन्द्र कुमार बागची (आई० सी०-2378),  
5/9 गोरखा राईफल्स
- 308 मेजर वेद प्रकाश भसीन (आई० सी०-6903), 1/8  
गोरखा राईफल्स
- 309 मेजर प्रेमसिंह बोहग (आई० सी०-7315), 2/1  
गोरखा राईफल्स
- 310 मेजर बिक्रम शमशेर भन्डारी (आई० सी०-7359),  
6 गढ़वाल राईफल्स
- 311 मेजर होशियार सिंह (आई० सी०-10058), 9 डोगरा
- 312 मेजर आनन्द कुमार श्रोबास्तव (आई० सी०-13039),  
8 जे० एण्ड के० राईफल्स
- 313 मेजर अद्धि देव बत्स (आई० सी०-13654), 3  
जाट (मरणोपरान्त)
- 314 मेजर गन्तूर बुटची वेकट सक्षमण शास्त्री (आई० सी०-  
7733), 7 पंजाब
- 315 मेजर धरम पाल (आई० सी०-10484), 9 मद्रास
- 316 मेजर कृष्ण लाल कोचर (आई० सी०-4844), 18  
राजपूताना राईफल्स
- 317 मेजर अवधाल हुसैन खां (आई० सी०-12023), 18  
राजपूताना राईफल्स
- 318 मेजर जगजोत सिंह (आई० सी०-6224), 18 राजपूताना  
राईफल्स
- 319 मेजर बलजीत कुमार मेहता (आई० सी०-5445), 6  
डोगरा
- 320 मेजर सुभाष बिहारी वर्मा (आई० सी०-7460), 19  
पंजाब
- 321 मेजर परमिन्दर सिंह (आई० सी०-13825), 19  
पंजाब
- 322 मेजर भूपेन्द्र भोसे (आई० सी०-11583), 4/8 गोरखा  
राईफल्स
- 323 मेजर रोशन लाल (आई० सी०-9271), ज/9 गोरखा  
राईफल्स
- 324 मेजर सर्वजीत सिंह आहलूवालिया (आई० सी०-11696),  
2 प्रेनेडियर्स
- 325 मेजर कैलाण चन्द्र काले (आई० सी०-6706), 2 सिख
- 326 मेजर प्रशान्त कुमार मिवा (आई० सी०-5277),  
3/11 गोरखा राईफल्स
- 327 मेजर रविन्द्र देवासर (आई० सी०-12528), 3/11  
गोरखा राईफल्स
- 328 मेजर जसविन्दर पाल सिंह सिन्धू (आई० सी०-13945),  
6 विहार
- 329 मेजर हरि सिंह (आई० सी०-5536), 13 प्रेनेडियर्स
- 330 मेजर राजेन्द्र कुमार बाली (आई० सी०-11178),  
वीर चक्र, 2 सिख एल० आई०
- 331 मेजर हरमू लक्ष्मण मूर्ति (आई० सी०-5279), 3/3  
गोरखा राईफल्स
- 332 मेजर रतन नाथ शर्मा (आई० सी०-5270), 9 पंजाब
- 333 मेजर शमशेर बहादुर गुरुंग (आई० सी०-10433),  
1 गढ़वाल राईफल्स
- 334 मेजर राजेन्द्र कुमार मेहता (आई० सी०-13225)  
20 पंजाब
- 335 मेजर कुपाल सिंह कोहली (आई० सी०-7014), 9 डोगरा
- 336 मेजर सीस राम यादव (आई० सी०-12406), 3 जाट
- 337 मेजर दयाल प्रशाद नाथर (आई० सी०-6163), 4 राज  
पूत
- 338 मेजर बिक्रम चिह्न लेता (आई० सी०-12960), 4 राजपूत
- 339 मेजर मेनन मगापुर चन्द्र सेखरन (आई० सी०-4723),  
1 गाँठस
- 340 कप्तान कृष्ण कारत तिवारी (आई० सी०-13978),  
1 मद्रास
- 341 कप्तान हरि राज सिंह (आई० सी०-12673), 5/9  
गोरखा राईफल्स
- 342 कप्तान हरगुरुदेव मिह चोगडा (ई० सी०-50690),  
4/8 गोरखा राईफल्स
- 343 कप्तान शाम सिंह पठानिया (आई० सी०-13581),  
3 जे० एण्ड के० गाँठफल्स
- 344 कप्तान हरमजन मिह (आई० सी०-14588), 2  
डोगरा
- 345 कप्तान दलवीर मिह बाजवा (आई० सी०-14551),  
3 डोगरा
- 346 कप्तान ललोक सिंह रन्धावा (आई० सी०-14623),  
14 जाट
- 347 कप्तान सुरजीत सिंह (आई० सी०-12618), 15 डोगरा
- 348 कप्तान सनत कुमार विश्वनाथ साठे (आई० सी०-14810)  
9 महाराष्ट्र
- 349 कप्तान रवेन्द्र मिह पठानिया (आई० सी०-13254),  
1 डोगरा
- 350 कप्तान सुरेश नारायण भट्टाचार्य (आई० सी०-14083),  
4 राजपूत
- 351 लेफिटनेट वीरेन्द्र कुमार (आई० सी०-13987), 9  
कुमाऊँ
- 352 लेफिटनेट राम सिंह (ई० सी०-50605), 4 राजपूताना  
राईफल्स
- 353 लेफिटनेट गुरबक्स मिह (आई० सी०-14452), 7 पंजाब
- 354 लेफिटनेट करनैल मिह (ई० सी०-51713), 2 डोगरा  
(मरणोपरान्त)
- 355 लेफिटनेट जमर्मीर मिह घेवाल (आई० सी०-14473),  
14 पंजाब
- 356 लेफिटनेट धर्म मिह विद्वान (ई० सी०-52549), 3  
प्रेनेडियर्स
- 357 लेफिटनेट होशियार सिंह (आई० सी०-14608), 3  
प्रेनेडियर्स
- 358 लेफिटनेट ठाकुर दास ठाकुर (जे० के० सी०-19),  
3 जे० एण्ड के० मिलिशिया
- 359 2/लेफिटनेट शिविन्द्र पाल सिंह (आई० सी०-16144),  
5/5 गोरखा राईफल्स
- 360 2/लेफिटनेट राजिन्दर सिंह (ई० सी०-52490), 1  
सिख एल० आई०
- 361 2/लेफिटनेट सुदेश चन्द्र सन्देल (ई० सी०-56353),  
9 डोगरा
- 362 2/लेफिटनेट लीगनगोडा कचनगोडा नादगीर (ई० सी०-  
56547), 6 मराठा) (मरणोपरान्त)
- 363 2/लेफिटनेट शिव दयाल भानु (ई० सी०-59205),  
6 गढ़वाल राईफल्स
- 364 2/लेफिटनेट गुरचरनजीत सिंह (ई० सी०-54352),  
7 पंजाब  
(मरणोपरान्त)
- 365 2/लेफिटनेट गगन कुमार वर्मा (ई० सी०-56396),  
2 राजपूताना राईफल्स
- 366 2/लेफिटनेट अमरजीत सिंह (ई० सी०-57128),  
2 महाराष्ट्र
- 367 2/लेफिटनेट महिंदर सिंह (ई० सी०-57517), 14  
पंजाब
- 368 2/लेफिटनेट बालासाहेब सिंहोजीराव भारो (ई० सी०-  
54720), 20 मराठा

369	२/लिफ्टनेट रविन्द्र महादिक (ई० सी०-५४२३७), १ मगधा एल० आई०	403	जे० सी०-४८१८ सूबेदार बख्तीश सिह, ३ सिख
370	२/लिफ्टनेट कंशव मिह (आई० सी०-१८९१) २ सिख	404	जे० सी० ५१५५ सूबेदार सुन्दर सिह, ३ सिख
371	२/लिफ्टनेट पृथ्वी निह दागर (ई० सी०-५५३५५). २ ग्रेनेडियर्स	405	जे० सी०-१०२६२ सूबेदार दामोदर सिह, १९ पंजाब
372	२/लिफ्टनेट द्वाण मन्द (ई० सी०-०३१९५), ११ जे० एण्ड के० मिलिशिया	406	जे० सी०-१६५५५ सूबेदार टेक बहादुर पुन, ३/८ गोरखा राईफल्स
373	२/लिफ्टनेट मंगत गम (ई० सी०-५६७७५), ५/८, गोरखा राईफल्स	407	जे० सी०-१२३६९ सूबेदार छन्दर सिह, २ ग्रेनेडियर्स
374	२/लिफ्टनेट ईश्वरी दयास खरे (ई० सी०-५६५००), ४ कुमाऊँ	408	जे० सी०-६०२० सूबेदार रघुनाथ मिह, ६ राजपूत (मरणोपरात्त)
375	२/लिफ्टनेट द्वान दयाल डोडियाल (ई० सी०-५४९५९) ६/५ गोरखा राईफल्स	409	जे० सी०-१०९४२ सूबेदार बलबार मिह, १ सिख
376	२/लिफ्टनेट गुरुदेव ईमह (आई० सी०-१४३६७), १ डोगरा	410	जे० सी०-१९८३ सूबेदार रिष्ठाल सिह, ५ जाट
377	२/लिफ्टनेट रणविजय मिह नणावत (आई० सी०- १५८०२), ३ गार्डस	411	जे० सी०-१२३०७ सूबेदार शिव सरण राणा, २/५ गोरखा राईफल्स
378	२/लिफ्टनेट कृष्ण कुमार चोपड़ा (ई० सी०-५४४५३), २ सिद्ध एल० आई०	412	जे० सी०-१४२९१ सूबेदार हसा मिह, १ सिख एल० आई०
379	२/लिफ्टनेट बलदेव गिह ब्राजवा (ई० सी०-५८९४८), १ गढ़वाल राईफल्स	413	जे० सी०-२५१५५ सूबेदार झग्गर सिह, ८ जे० एण्ड के० राईफल्स
380	२/लिफ्टनेट पूर्ण चन्द्र पाण्डे (ई० सी०-५६५४९), ३ महारा	414	जे० सी०-७२६४ सूबेदार चन्द्र वीर थापा, २/१ गोरखा राईफल्स
381	२/लिफ्टनेट रणवीर मिह (ई० सी०-५१८१८), ३ गार्डस	415	जे० सी०-२१०० सूबेदार मुक्तार सिह, १ सिख एल० आई०
382	२/लिफ्टनेट बलविन्दर मिह ग्रेवाल (ई० सी०-५४९०७), ५ गार्डस	416	जे० सी०-१४६७० सूबेदार राजेन्द्र सिह, ४ राजपूत
383	२/लिफ्टनेट पीरु राम (ई० सी०-५८८४४), ३ गार्डस	417	११२०७६९ सूबेदार गुरुदेव मिह, ११ जे० एण्ड के० मिलिशिया
384	जे० सी०-२००७ सूबेदार मेजर (आसरेंगि ल०) प्रभ राम, ५ जाट	418	जे० सी०-५४९० सूबेदार दीप चन्द, २ ग्रेनेडियर्स (मरणोपरात्त)
385	जे० सी०-५०३० सूबेदार मेजर (आसरेंगि ल०) भगत मिह रावत, १ गढ़वाल राईफल्स	419	जे० सी०-२०१६ सूबेदार दुली चन्द, १४ जाट
386	जे० सी०-५२३१, १ सूबेदार मेजर माहन मिह, १ सिद्ध गाल० आई०	42०	जे० सी०-२८९३२ नायब सूबेदार ओम बहादुर धरनी, ५/४ गोरखा राईफल्स
387	जे० सी०-५४३२ सूबेदार मेजर कृष्ण मिह राणा, २/५ गोरखा राईफल्स	42१	२५३६१३३ नायब सूबेदार एम० नारायणन नायर, १ मद्रास
388	जे० सी०-१७४४ सूबेदार मेजर अमर मिह, ३ पंजाब	42२	२४२९८६८ नायब सूबेदार चरण मिह, ७ पंजाब
389	जे० सी०-२३३६ सूबेदार मेजर लच्छम मिह, ४ कुमाऊँ	42३	२५१०७१० नायब सूबेदार जमवन सिह, १४ पंजाब
390	जे० सी०-३८९३४ सूबेदार मेजर प्रताप मिह, ३ जाट	42४	जे० सी०-२४११८ नायब सूबेदार बाज मिह, १ डोगरा
391	जे० सी०-१५९९६ सूबेदार गुभान मिह, ४ राजपूताना राईफल्स	42५	जे० सी०-३१७४८ नायब सूबेदार गुरुदाम सिह, ६ सिख एल० आई०
392	जे० सी०-६३६७ सूबेदार मागरसन राम, ४ राजपूताना राईफल्स	१२६	जे० सी०-२१४२४ नायब सूबेदार शिव राम, १९ पंजाब
393	जे० सी०-११०३१ सूबेदार भूपाल मिह गसाई, ८ गढ़वाल राईफल्स	४२७	जे० सी०-२७५३३ नायब सूबेदार गिव चरण सिह, ५ कुमाऊँ
394	जे० सी०-७०९५ सूबेदार राज बहादुर मिह, १८ राज- पूताना राईफल्स	४२८	५६०५१४७ नायब सूबेदार गल बहादुर आल०, ३/८ गोरखा राईफल्स
395	जे० सी०-४८११ सूबेदार भरपुर मिह, ३ जाट	४२९	जे० सी०-२४९४० नायब सूबेदार बद्री सिह, राजपूत
396	जे० सी०-८२५९ सूबेदार इन्द्र मिह, ७ पंजाब	४३०	जे० सी०-२५३५४ नायब सूबेदार सूरत सिह, १ पंजाब
397	जे० सी०-१८९४० सूबेदार दीदार मिह, ७ पंजाब	४३१	जे० सी०-३३२०० नायब सूबेदार शकर सिह, २ डोगरा
398	जे० सी०-१४४३३ सूबेदार शिव गतन मिह, २ राजपूताना राईफल्स	४३२	जे० सी०-१६८१६ नायब सूबेदार बोम बहादुर थापा, ५/५ गोरखा राईफल्स
399	जे० सी०-१२२७३ सूबेदार रामदास सोमवन्धी, २ मराठा	१३३	जे० सी०-३०९६५ नायब सूबेदार नारायण राम, ४ राजपूत
400	जे० सी०-५९११ सूबेदार चौधरी राम, ९ पंजाब	४३४	९४०१५३१ नायब सूबेदार तिलबिक्कम राय, ३/११ गोरखा राईफल्स
401	जे० सी०-१६१९६ सूबेदार के० एम० युसुफ, १ मद्रास	४३५	जे० सी०-२१४८० नायब सूबेदार राम सिह, ४ कुमाऊँ (मरणोपरात्त)
402	जे० सी०-२१७९५ सूबेदार बूटा राम, ९ महार	४३६	जे० सी०-२९६४२ नायब सूबेदार सन्तिता नन्द सिह, ६ विहार

437	2944337	सी० क्य० एम० एच० हरबन्धा लाल, 1 पैरा	470	2438382	लास हवलदार सोहन सिंह, 7 पंजाब (मरणोपरान्त)
438	4133511	मी० एच० एम० राम अवरूप, 1 पैरा	471	5734196	लास हवलदार तेज बहादुर गुरुंग, 6/8 गोरखा राईफल्स
439	2536838	मी० एच० एम० पोथीकनू पिल्ले शिवशक्ति नागायणन, 3 मद्रास	472	2540607	लास हवलदार थकंपन पिल्ले, 9 मद्रास
440	2834898	हवलदार मामराज सिंह, 4 राज- पूताना राईफल्स (मरणोपरान्त)	473	4140455	लास हवलदार मोहन सिंह, 3 कुमाऊँ
441	3132845	हवलदार गम सिंह, 6 जाट	474	3339590	लास हवलदार दलीप सिंह, 2 सिख
442	4034522	हवलदार गवर सिंह नेगी, 8 गढ़वाल राईफल्स (मरणोपरान्त)	475	2542724	लास हवलदार बालसुब्रह्मण्यम, 4 मद्रास
443	2539013	हवलदार पी० जे० मथाई, 1 मद्रास	476	4035842	नायक कुन्दन सिंह नेगी, 8 गढ़वाल राईफल्स
444	5031796	हवलदार छ्यान सिंह खनका, 2/1 गोरखा राईफल्स	477	2542730	नायक सी० भोहम्मद कुट्टी, 1 मद्रास
445	5228977	हवलदार बसु थापा, 2/1 गोरखा राईफल्स	478	2440243	नायक परमजीत सिंह, 7 पंजाब
446	2842174	हवलदार शिव मोहन सिंह, 18 राजपूताना राईफल्स (मरणोपरान्त)	479	2439948	नायक भजन सिंह, 7 पंजाब
			480	2843652	नायक विशन सिंह, 2 राजपूताना राईफल्स
447	3138165	हवलदार हरि चन्द, 3 जाट	481	2548064	नायक पन्डाराकोट्टीलिल मोहदीन, 9 मद्रास
448	3139131	हवलदार रूप चन्द, 3 जाट	482	2735881	नायक बाबूराव पाटिल, 2 मराठा एल० आई०
449	2439023	हवलदार लघुभन सिंह, 7 पंजाब	483	3947907	नायक जगत सिंह, 1 डोगरा
450	2438112	हवलदार हरि किशन, 7 पंजाब	484	3947088	नायक सोहन सिंह, 1 डोगरा
451	2439442	हवलदार नारा सिंह, 7 पंजाब	485	2844338	नायक मोहिन्द्र सिंह, 2 राजपूताना राईफल्स
452	2437412	हवलदार केसर सिंह, 7 पंजाब	486	4435393	नायक मंगल सिंह, 6 सिख एल० आई० (मरणोपरान्त)
453	2544043	हवलदार शमुगावेली, 9 मद्रास	487	4435377	नायक प्रीतम सिंह, 6 सिख एल० आई० (मरणोपरान्त)
454	2830357	हवलदार किंशोर सिंह, 2 राजपूताना राईफल्स	488	9080586	नायक अब्दुल गफ्फार लोने, 3 जे० एण्ड के० मिलिशिया
			489	13716522	नायक जयदीप सिंह, 3 जे० एण्ड के० राईफल्स
455	2434974	हवलदार बलदेव सिंह, 7 पंजाब	490	2744422	नायक श्रीरंग पाल, 20 मराठा
456	4142469	हवलदार हरि हर सिंह, 15 कुमाऊँ	491	5729878	नायक सन्त वीर गुरुंग, 3/8 गोरखा राईफल्स
457	2436621	हवलदार हरिभजन सिंह, 9 पंजाब (मरणोपरान्त)	492	3338657	नायक सुरजीत सिंह, 2 सिख
458	5730458	हवलदार कुल बहादुर गुरुंग, 5/8 गोरखा राईफल्स	493	3943484	नायक सरबम सिंह, 2 डोगरा
459	1415610	हवलदार मेला सिंह, 1 पैग	494	3139688	नायक अमर सिंह, 1 पैग (मरणोपरान्त)
460	13711375	हवलदार रतन बहादुर, 3 जे० एण्ड के० राईफल्स	495	2639242	नायक यंडी राम, 2 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरान्त)
461	5735025	हवलदार रामबहादुर गुरुंग, 4/8 गोरखा राईफल्स	496	4140665	नायक हरि चन्द, 3 कुमाऊँ
462	2636511	हवलदार उमेद सिंह, 4 ग्रेनेडियर्स	497	10355190	नायक बिहारी लाल, आई० एन० एफ० (टी० ए०)
463	2438967	हवलदार रिखी राम, 19 पंजाब	498	2544081	नायक रमन नाथर, 4 मद्रास (मरणोपरान्त)
464	3135915	हवलदार राम किशन, 5 जाट (मरणोपरान्त)	499	2544925	नायक पी० शंकरनारायण पिल्ले, 1 मद्रास (मरणोपरान्त)
465	4035141	हवलदार सन्तलाल सिंह पुन्डीर, 6 गढ़वाल राईफल्स	500	4036520	नायक मनमोहन सिंह नेगी, 1 गढ़वाल राईफल्स
466	4035425	लास हवलदार केशर सिंह विष्ट, 8 गढ़वाल राईफल्स (मरणो- परान्त)	501	2539280	नायक गोपाल कृष्णन, 9 मद्रास मद्रास (मरणोपरान्त)
467	4140840	लास हवलदार किशन सिंह, 9 कुमाऊँ			
468	2536821	लास हवलदार आर० आनन्दन, 1 मद्रास			
469	3133927	लास हवलदार जिले सिंह, 3 जाट (मरणोपरान्त)			

502	4437997	लास नायक करतार सिंह, 1 सिख एल० आई०	537	2548432	यू०/एल०/नायक माईकेल, 4 मद्रास
503	3946321	लास नायक प्रेम चन्द, 9 डोगरा	538	2544684	यू०/एल०/नायक सर्जिवा, 9 मद्रास (मरणोपरान्त)
504	3947096	लास नायक समगज सिंह, 9 डोगरा	539	4144838	य०/प०/एल०/नायक शेर सिंह, 4 कुमाऊँ
505	3948470	लास नायक हरि राम, 9 डोगरा	540	3148984	सिपाही अमर सिंह, 7 जाट
506	4035143	लास नायक तिलोक सिंह रावत, 8 गढ़वाल राईफल्स (मरणोपरान्त)	541	3145358	सिपाही महावीर सिंह, 3 जाट
507	5833856	लास नायक बिशन सिंह थापा, 5/9 गोरखा राईफल्स	542	3142250	सिपाही कमर सिंह, 3 जाट
508	2956242	लास नायक झान चन्द, 20 गज- पूत्	543	2442696	सिपाही ईशर सिंह, 7 पंजाब
509	2546056	लास नायक जगदीशन, 1 मद्रास	544	2450589	सिपाही बिहारी लाल, 7 पंजाब (मरणोपरान्त)
510	7405656	लास नायक श्याम कुमार राय, 5/11 गोरखा राईफल्स	545	4151493	सिपाही सिताब सिंह, 9 कुमाऊँ
511	3138953	लास नायक तुलसा राम, 3 जाट	546	2746215	सिपाही हरिश चन्द शिन्डे, 19 मराठा (मरणोपरान्त)
512	2442506	लास नायक दास राम, 7 पंजाब (मरणोपरान्त)	547	2748674	सिपाही शान्ताराम शिन्डे, 19 मराठा
513	2440969	लास नायक बचन सिंह, 7 पंजाब (मरणोपरान्त)	548	2557720	सिपाही सिंधासामी बालाकुण्ठन, 9 मद्रास (मरणोपरान्त)
514	2440536	लास नायक नाग सिंह, 7 पंजाब	549	2550811	सिपाही नागना, 9 मद्रास (मरणोपरान्त)
515	2441780	लास नायक जोगी दाम, 7 पंजाब	550	2551161	सिपाही श्री कुमारन नाथर, 9 मद्रास (मरणोपरान्त)
516	2743812	लास नायक भीवा कुम्भार, 19 मराठा	551	2554320	सिपाही भास्करन पुथुबलिल नारायणन, 9 मद्रास
517	2945122	लास नायक रत्न राम, 17 गजपूत	552	2555105	सिपाही कुन्डरी सुर्य राजू, 9 मद्रास (मरणोपरान्त)
518	2547975	लास नायक जार्ज वरधीज, 9 मद्रास (मरणोपरान्त)	553	2449276	सिपाही कृष्ण चन्द शर्मा, 14 पंजाब
519	2742539	लास नायक बाजीराव कर्णडे, 2 मराठा एल० आई०	554	4535977	सिपाही बाबू धेरे, 3 महार (मरणोपरान्त)
520	2745399	लास नायक शंकर पाटिल, 2 मराठा एल० आई०	555	2548147	सिपाही कुसुमा साहादेवाढू, 1 मद्रास (मरणोपरान्त)
521	3944149	लास नायक तेनु राम, डोगरा	556	4443172	सिपाही जागीर सिंह, 6 सिख एल० आई०
522	4154074	लास नायक कर्तार सिंह, 11 कुमाऊँ	557	3958712	सिपाही रौतकी राम, 6 डोगरा
523	3345634	लास नायक जालौर सिंह, 1 सिख	558	2451553	सिपाही तरखेम लाल, 19 पंजाब
524	3916775	लास नायक जागिन्द्र सिंह, 2 डोगरा	559	4147350	सिपाही आन सिंह, 8 कुमाऊँ
525	3947307	लास नायक कृष्ण लाल, 1 पैरा (मरणोपरान्त)	560	3340668	सिपाही मोहिन्दर सिंह, सिख
526	9120229	लास नायक नेतर सिंह, 11 जे एण्ड के मिलिशिया	561	4145999	सिपाही नेत राम, 4 कुमाऊँ
527	4535472	लास नायक शिवाजी सुगदकर, 3 महार०	562	4146937	सिपाही माम चन्द, 4 कुमाऊँ
528	4533987	लास नायक शिवाजी केंगर, 3 महार०	563	3959483	सिपाही लखिया राम, 2 डोगरा (मरणोपरान्त)
529	9202474	लास नायक हरि सिंह, बार्डर बटा- नियन्त्र इन्केंश्री	564	3952756	सिपाही सुरेन्द्र सिंह, 2 डोगरा
530	2744867	लास नायक कल्याण फरन्टे, 4 मराठा एल० आई०	565	9093548	सिपाही बुद्धा सिंह, 11 जे एण्ड के मिलिशिया
531	5032976	लास नायक मंगल बहादुर थापा, 1/1 गोरखा राईफल्स	566	4441435	सिपाही जीत सिंह, 6 सिख एल० आई० (मरणोपरान्त)
532	4039085	लास नायक राम सिंह राणा, 6 गढ़साल राईफल्स (मरणोपरान्त)	567	4443456	सिपाही बदरिंश सिंह, 6 सिख एल० आई०
533	9204355	लास नायक कृष्ण चन्द, 10 महार०	568	4141513	सिपाही होशियार सिंह, 8 कुमाऊँ
534	2747435	लास नायक राम चन्द गोडसे, 19 मराठा	569	4150073	सिपाही बहादुर चन्द, 6 कुमाऊँ (मरणोपरान्त)
535	3138627	लास नायक भूप सिंह, 3 जाट	570	4151259	सिपाही सुरेश चन्द, 9 कुमाऊँ
536	4435762	यू०/र०/लास नायक गजन सिंह, 1 सिख एल० आई०	571	2750694	सिपाही गंगा राम थादव, 4 मराठा एल० आई०

572	4439666	सिपाही बकरीश निह, 2 मिख एल० आई०	602	लेफ्टनेंट कर्नल किशोरकायिल प्रसाद चन्द्र नायर (आई० सी०-1431)
573	9204691	सिपाही कुलवन्त सिह, 10 महार (मरणोपरान्त)	603	मेजर कपूर सिह विके (आई० सी०-1508)
574	9204645	सिपाही बलबेर सिह, 10 महार (मरणोपरान्त)	604	मेजर अलवन जौसफ डिकून्हा (आई० सी०-11754)
575	3146612	सिपाही बजरंग लाल, 7 जाट	605	मेजर कंवर जगवन्ता सिह, (आई० सी०-2918)
576	2438036	सिपाही उजागर निह, 7 पंजाब (मरणोपरान्त)	606	कप्तान अरविन्द देव मलहोका (आई० सी०-7403)
577	4443661	सिपाही बुद्ध निह, 6 मिख एल० आई०	607	2/लेफ्टनेंट रविन्द्र सिंह भोज (ई० सी०-56577)
578	3151470	सिपाही सुखर्चिंग सिह, 5 जाट (मरणोपरान्त)	608	2/लेफ्टनेंट रमा प्रसाद समधर (ई० सी०-54262)
579	4039272	राईफलमैन बलवन्त निह विष्ठ, 8 गढ़वाल राईफल्स (मरणोपरान्त)	609	2/लेफ्टनेंट प्रेम दास मलिक (ई० सी०-55901)
580	5336676	राईफलमैन मूलचन्द नागरकोटी 5/4 गोरखा राईफल्स	610	जे० सी०-3101 रिसालदार राम चरन साल शर्मा
581	4043634	राईफलमैन कुंवर निह नेगी, 6 गढ़वाल राईफल्स	611	6560398 हवलदार अजीत सिह
582	5435954	राईफलमैन मन बहादुर गुरुंग, 2/5 गोरखा राईफल्स	612	6429203 हवलदार पी० टी० एन्थनी
583	9409338	राईफलमैन भूषण कुमार राय, 5/11 गोरखा राईफल्स	613	6348107 नायक (एस० एच० टी०) एस० कृष्ण मूर्ती
584	2852331	राईफलमैन कल्याण सिह, 5 राजपूताना राईफल्स	614	13807390 सिपाही/झाइवर कन्हायाचल गोविन्दन नम्बियार
585	2852235	राईफलमैन रोशन सिह, 2 राजपूताना राईफल्स (मरणोपरान्त)	615	13806008 सिपाही/झाइवर (एम० टी०) हरदेव सिह
586	2855557	राईफलमैन देस राज सिह, 18 राजपूताना राईफल्स	616	6620605 सिपाही/झाइवर छोटे साल
587	5438936	राईफलमैन जय बहादुर थापा, 6/5 गोरखा राईफल्स	617	613805662 सिपाही/झाइवर (एन० टी०) हाकिम सिह
588	5440029	राईफलमैन पदम बहादुर थापा, 6/5 गोरखा राईफल्स	618	6618882 सिपाही/झाइवर अमर सिह
589	9405596	राईफलमैन लाल मन राय, 3/11 गोरखा राईफल्स	619	6451340 झाइवर (ए० टी०) हाकिम सिह
590	5738903	राईफलमैन डोल बहादुर थापा, 4/8 गोरखा राईफल्स	620	6453026 झाइवर (ए० टी०) लीला धर
591	4148530	राईफलमैन प्रयाग दस, 3 कुमाऊं (मरणोपरान्त)	कोर आफ इलेविंग्स कोर एण्ड मेनेजिमेंट इंजीनियरिंग	
592	2645824	प्रेनेडियर सीस राम, 4 प्रेनेडियर्स	621	कर्नल गुरसरन सिह (आई० सी०-1234)
593	2644964	प्रेनेडियर जय सिह, 4 प्रेनेडियर्स	622	लेफ्टनेंट कर्नल शरन सिह (आई० सी०-6082)
594	2650723	प्रेनेडियर सुख पाल सिह, 4 प्रेनेडियर्स	623	मेजर चरणजीत सिह (आई० सी०-6925)
595	2650225	प्रेनेडियर गुलाम मोहम्मद, 4 प्रेनेडियर्स (मरणोपरान्त)	624	मेजर नित्यानन्द एलेहनसी (आई० सी०-6924)
596	2649410	प्रेनेडियर बलदेव सिह, 4 प्रेनेडियर्स	625	मेजर सतकारी मुखर्जी (आई० सी०-10798)
597	5441912	मैस बेटर धरम चन्द, 2/5 गोरखा राईफल्स	626	कप्तान अनूप सिह (एस० एच०-444)
598	3969173	मैस बेटर नीलू, डोगरा	627	2/लेफ्टनेंट अवजिन्दर सिह चौधरी (ई० सी०-52790)
आर्मी सप्लाई कोर			628	2/लेफ्टनेंट हरि जोग बचन सिह (ई० सी०-51366)
599		कर्नल बसराज दिवान (आई० सी०-2453)	629	2/लेफ्टनेंट नारायण राव सेषु माधवन (ई० सी०-57645)
600		लेफ्टनेंट कर्नल संयुक्त मजाहिर अब्दास (आई० सी०-5250)	630	2/लेफ्टनेंट मुल्की गनेश राव (ई० सी०-54414)
601		लेफ्टनेंट कर्नल शान्तिप्रिय गंगूली (आई० सी०-3652)	631	जे० सी०-3718 सुबेशर दीना नाथ गेंद
			632	7009343 हवलदार हुरि चन्द
			633	7013145 नायक नारायण स्वरूप शर्मा
			634	7010788 नायक टी० ई० भानू
			635	7011203 नायक मोहन्दिर सिह
			626	आफ्टसमैन जगदीश सिह
			आर्मी मेडिकल कोर	
			637	कर्नल रमन माधवन नायर (एम० आर०-246)
			638	कर्नल कंवर प्रताप सिह (एम० आर०-201)
			639	लेफ्टनेंट कर्नल (मिस) पौलिन मेनन (एन०-18279), एम० एन० एस०
			640	मेजर (मिस) अचम्भा धीवरधीस (एन०-680924), एम० एन० एस०
			641	मेजर नित्या नन्द शर्मा (एम० आर०-950)
			642	मेजर सन्तिब्रत सूरें (एम० आर०-1298)
			643	मेजर बिरची प्रसाद समन्ता (एम० आर० 73)
			644	कप्तान चालिल संकरन गोपीनाथन (एम० चंगरम कुमारथ कर्णाकरण रा
			645	कप्तान चंगरम कुमारथ कर्णाकरण रा एस०-6997)

- 646 कप्तान जयराम ओथायामादय (एम० एस०-6884)  
 647 कप्तान हरनेक सिंह मान (एम० एम०-7007)  
 648 कप्तान दिलबाष सिंह (एम० आर०-1762)  
 649 कप्तान सुभाष गोविन्द राड्डी तिमाराड्डी (एम०-30283)  
 650 कप्तान बलत्तानिल मणि मणि (एम०-30369)  
 651 कप्तान सुरेन्द्र सिंह यादव (एम० आर०-1483)  
 652 कप्तान किशन मोहन सेठी (एम० एम०-6830)  
 653 जे० सी०-3239 सूबेदार कलर्क कृष्ण धन चक्रवर्ती  
 654 6780247 नायक नर्सिंग असिस्टेंट अगदीश  
     चन्द्र मिश्र<sup>1</sup>  
 655 6588022 लास नायक कानन  
 656 6819326 मिपाही/ड्राइवर भान्वीराम हाजोंग  
 657 6798282 मिपाही नर्सिंग असिस्टेंट मोहन लाल  
     भट्ट (मरणोपरान्त)  
 658 6812319 मिपाही एम्बूलेन्स असिस्टेंट हाकम  
     मिह  
 659 6801177 सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट निकिल  
     चन्द्र  
 660 6810177 सिपाही बाबू लाल

### डिफेंस सेक्यूरिटी कोर

- 661 जे० सी०-19285 नायब सूबेदार शान सिंह

स० 77-प्रेज़ा/66—राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री को वायु सेना-ध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रेषणों में उल्लिखित निम्नांकित अधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के नामों को भारतीय राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है :—

कछुतथा भारत-पाक सीमा पर 1965 की संक्षिप्त में

- 1 एयर कमोडोर पौधरी चालवरी रामाचन्द्रन (3514), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 2 प्रुप केप्टिन वेलोर मनिकम राधाकृष्णन (1769), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 3 विंग कमाण्डर सैसिल हियू लारेस्स डिगबी (2988), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 4 विंग कमाण्डर जौर्ज डगलस क्लार्क (3295), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 5 विंग कमाण्डर जगदीश चन्द्र वर्मा (3788), टेक्निकल इंजिनियरिंग
- 6 विंग कमाण्डर जगदीश रंगानाथ बंकापुर (2986), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 7 विंग कमाण्डर मलकाम शरले डुडस ओल्लन (3641), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 8 विंग कमाण्डर मुध्याला धनराज (3604), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 9 विंग कमाण्डर परसी एडवर्ड हैरिंगटन (3239), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 10 विंग कमाण्डर रामा अव्यर कृष्णा मूर्ती (3828), जनरल ड्यूटीस् (नेवीगेटर)
- 11 विंग कमाण्डर टोर्लिक जक्कीरिया (3026), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)

- 12 स्क्वार्डन लीडर अब्राहम मैथ्यूम् (4547), टेक्निकल सिगनलस्
- 13 स्क्वार्डन लीडर अमरीक मिह अह्नवालिया (4778), जनरल ड्यूटीस् (नेवीगेटर)
- 14 स्क्वार्डन लीडर अश्वासवामी श्रीधरन (4761), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 15 स्क्वार्डन लीडर अस्ण काल्नि मुखर्जी (4416), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 16 स्क्वार्डन लीडर अविनाश वासुदेव लिले (4885), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 17 स्क्वार्डन लीडर चरनजीत मिह (4823), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 18 स्क्वार्डन लीडर चित्तीलेमचेरी पथिङ्ल कर्णाकरन मेनन (5350), टेक्निकल/सिगनलस्
- 19 स्क्वार्डन लीडर दिलीप शंकर जौग (4608), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 20 स्क्वार्डन लीडर डोनाल्ड मेलविन कॉक्सेस्ट (4692), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 21 स्क्वार्डन लीडर जगदीश चन्द्र वर्मा (4251), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 22 स्क्वार्डन लीडर जगदीश राय भास्कर (5401), टेक्निकल/इंजीनियरिंग
- 23 स्क्वार्डन लीडर जोगिन्दर मिह (5167), (इक्विप-मेंट)
- 24 स्क्वार्डन लीडर ज्योति प्रसाद गुप्ता (4333), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 25 स्क्वार्डन लीडर मन मोहन मिन्हा (4408), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 26 स्क्वार्डन लीडर माईकेल एड्रिएन गुरने (4900), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 27 स्क्वार्डन लीडर निर्मल चन्द्र सूरी (4236), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 28 स्क्वार्डन लीडर पदमाकर दत्ता देशपाण्डे (4600), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 29 स्क्वार्डन लीडर रमेश सखाराम बेनेगल (4220), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 30 स्क्वार्डन लीडर रिपु वर्मन मिह भंडारी (4569), जनरल ड्यूटीस् (नेवीगेटर)
- 31 स्क्वार्डन लीडर सुधीर कृष्ण मजुमदार (2056), एडमिनिस्ट्रेटिव एण्ड स्पैशल ड्यूटीस्
- 32 स्क्वार्डन लीडर सुन्दरम कल्याणमुद्दरम (5613), टेक्निकल/इंजिनीयरिंग
- 33 स्क्वार्डन लीडर बहुली कृष्णामूर्ती (4261), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 34 फ्लाइट लेपिटनेंट अजय कुमार अन्नावार (5858), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 35 फ्लाइट लेपिटनेंट अरुण कुमार बहल (5330), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 36 फ्लाइट लेपिटनेंट अवतार सिह उपल (5223), जनरल ड्यूटीस् (नेवीगेटर)
- 37 फ्लाइट लेपिटनेंट दर्शन मिह बरार (6337), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)
- 38 फ्लाइट लेपिटनेंट दया कृष्ण धीमन (5180), जनरल ड्यूटीस् (पाइलट)

39	फ्लाइट लेपिटनेंट देवोतोश बैनर्जी (5800), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	66	प्लाइट आफीसर थिरुनीलाई गमास्वामी जानकीरमन (7058), टैक्सिकल/इंजीनियरिंग
40	फ्लाइट लेपिटनेंट गुरुथी गुरुमिहपा (7265), मेडिकल	67	11479 मास्टर वारंट आफीसर कृष्ण लाल, इक्विपमेट/अमिस्टेट
41	फ्लाइट लेपिटनेंट हेनरी विवेयन डी कोस्टा (6372), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	68	11750 मास्टर वारंट आफीसर गणधीर सिह जगदेव, प्लाइट 1
42	फ्लाइट लेपिटनेंट इन्द्र प्रकाश अहजा (5389), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	69	21703 वारंट आफीसर दिल्लीप कुमार राय चौधरी, प्लाइट गनर
43	फ्लाइट लेपिटनेंट जनक प्रताप सिंह (5672), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	70	11724 वारंट आफीसर मेंहंगा मिह, एस० ई० डब्ल्यू०
44	फ्लाइट लेपिटनेंट मदन मोहन भेनी (5925), जनरल इयूटीस् (नेवीगेटर)	71	201368 वारंट आफीसर सूरत मिह थादव, प्लाइट इंजीनियर
45	फ्लाइट लेपिटनेंट मोहन सुरदेश्वर (5178), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	72	26600 फ्लाइट मार्जेन्ट अमरीक मिह, फिट्र आर्मरर
46	फ्लाइट लेपिटनेंट फिलिप राजकुमार (6748), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	73	206127 फ्लाइट मार्जेन्ट अथिकाराथिल चोना जौन, राष्ट्रार मेकेनिक
47	फ्लाइट लेपिटनेंट प्रतिपाल सिंह परिहार (6775), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	74	41596 फ्लाइट मार्जेन्ट चेम्बुगी मिह, थिफ्ट्र आर्मरर
48	फ्लाइट लेपिटनेंट पुरुषोत्तम वासुदेव मुकेश (6072), टैक्सिकल/इंजीनीयरिंग	75	49524 फ्लाइट सार्जेन्ट जंगानाहाली गमाचन्द्र राव, इक्विपमेट अमिस्टेट
49	फ्लाइट लेपिटनेंट गविन्द चन्द्र (5960), टैक्सिकल/मिगनलम्	76	29536 फ्लाइट मार्जेन्ट काकलंजमुदी नारामाश्छण मूर्ती, वायरलेस आपरेटर मेकेनिकल
50	फ्लाइट लेपिटनेंट श्रीनिवासपुरम कृष्णास्वामी (6338), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	77	30527 फ्लाइट मार्जेन्ट कुलबन्त मिह गिल, प्लाइट 1
51	फ्लाइट लेपिटनेंट श्रीगति कुमार वर्मा (5894), एड-मिनिस्ट्रेटिव एण्ड स्पैशल इयूटीस्	78	21125 फ्लाइट सार्जेन्ट मेलागध अराविन स्कशन मेमन, इलेक्ट्रिसियन-1
52	फ्लाइट लेपिटनेंट सुरेश शंकरराव डांगे (6762), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	79	18321 फ्लाइट मार्जेन्ट नारायन अप्पा कशीद, फिट्र-1
53	फ्लाइट लेपिटनेंट सर्व कान्त भारद्वाज (6423), एड-मिनिस्ट्रेटिव एण्ड स्पैशल इयूटीस्	80	18753 फ्लाइट सार्जेन्ट रनेन्द्र कुमार भट्टाचार्जी, फिट्र-1
54	फ्लाइट लेपिटनेंट विष्णु मूर्ति रेना (5382), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	81	21762 फ्लाइट मार्जेन्ट शैलेश कुमार दत्ता, फिट्र-1
55	फ्लाइंग आफीसर चन्द्रकान्त निजानन्द बाल (7401), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	82	208809 मार्जेन्ट वालाचन्दा नन्जपा मेडाप्पा, प्लाइट गनर
56	फ्लाइंग आफीसर चन्द्रनगू गिरीकान्त पाण्ड्या (6381), टैक्सिकल/इंजीनीयरिंग	83	400079 सार्जेन्ट बन्सी धर पाल, फिट्र-11 एयर-फ्रेम
57	फ्लाइंग आफीसर कुमारन तांपी सुधीर (6668), टैक्सिकल/इंजीनीयरिंग	84	15882 सार्जेन्ट गान्ध्रिएल नथानिएल कुजूर, फिट्र-11 एयर फ्रेम
58	फ्लाइंग आफीसर माईक्स मैक्सोहन (7399), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	85	203116 सार्जेन्ट गंगा विशन शर्मा, फिट्र-11 एयर-फ्रेम
59	फ्लाइंग आफीसर आलाटी रामचन्द्र राव (6898), टैक्सिकल/इंजीनीयरिंग	86	204499 सार्जेन्ट हरमिन्दर जीत मिह, फिट्र-11 ई०
60	फ्लाइंग आफीसर रवी कपूर (7481), जनरल इयूटीस् (नेवीगेटर)	87	203842 सार्जेन्ट हशमत उल्हा, फिट्र-11 ए० (1)
61	फ्लाइंग आफीसर तारा मिह (7367), टैक्सिकल/(इंजीनीयरिंग)	88	43922 मार्जेन्ट द्वाधिम कादिर, डब्ल्यू० ओ० एम० 1
62	फ्लाइंग आफीसर वेंकटनारायण नरहरी राव (7376), टैक्सिकल/इंजीनीयरिंग	89	35292 सार्जेन्ट इदीकुल्ला वरधीज, फिट्र आर्मरर
63	फ्लाइंग आफीसर थेगिन्द्र प्रकाश (8168), जनरल इयूटीस् (पाइलट)	90	208824 सार्जेन्ट केशवन गंगाधरन, फिट्र 11 एयरफ्रेम (1)
64	फ्लाइंग आफीसर कल्याणरमन बद्री नारायण (6826), टैक्सिकल/इंजीनीयरिंग	91	214941 सार्जेन्ट मन्धाइल वरधीज जान, फाइटर प्लौटर
65	पाइलट आफीसर शमशेर मिह (7524), एडमिनिस्ट्रेटिव एण्ड स्पैशल इयूटीस्	92	400032 सार्जेन्ट नगेत्र विक्रम, फिट्र आर्मरर
		93	400323 सार्जेन्ट नरिन्दर कुमार नन्दा, फिट्र आर्मरर
		94	203748 सार्जेन्ट परमेश्वरी चन्द डोगरा, फिट्र आर्मरर
		95	400342 सार्जेन्ट रविन्द्र नाथ भेन, प्लाइट गनर
		96	211822 सार्जेन्ट राज पाल, कलंक जी० ई०

97	209444	मार्जेन्ट राम कुमार दत्ता, फिट्रूर 11-ई०
98	400378	मार्जेन्ट सदानन्द शंकर जोशी, इन्स्ट्रूमेंट रिपेयरर-१
99	208808	सार्जेन्ट थिप्पान्ना कोथामंगलम मुथान्ना, फ्लाइट गनर
100	223381	कारपोरल अनन्त रघुबदास महाजन, फिट्रूर आर्मरर
101	214830	कारपोरल अनन्त मानी, राडार मैकेनिक
102	206002	कारपोरल बांके बिहारी लाल श्रीवास्तव, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री
103	222639	कारपोरल चौपेकर एकहैथ सदाशिव, फिट्रूर-११, एयरफ्रेम्स
104	222887	कारपोरल हरमजन सिंह चाहाल, फिट्रूर आर्मरर-१
105	223750	कारपोरल इकबाल अहमद लारी, आई० ए० एफ० पुलिस
106	207827	कारपोरल जगतर सिंह अथवाल, फिट्रूर-११ एयरफ्रेम्स
107	220858	कारपोरल लाखन महतो, एक/जी० डी०
108	209681	कारपोरल लक्ष्मीनारायणपुरम विश्वानाथन वेंकटेश्वरन, फिट्रूर आर्मरर
109	218198	कारपोरल भाकि लाल साहा, फिट्रूर-११, एयरफ्रेम्स
110	219018	कारपोरल मेननपरम्पी नारायनन नायर, आर्मरर-११
111	218732	कारपोरल भुन्डावलाप्पिल नारायनन, फिट्रूर-११ एयरफ्रेम्स
112	217716	कारपोरल पद्मनाभन मोवारा कच्चलम-वाली नामबियर, फिट्रूर आर्मरर
113	219499	कारपोरल पटनकाट्टिल केसवन मुर्लीधरन, इलेक्ट्रिसियन-१
114	47197	कारपोरल पयनाइन मुकुन्दन, इलेक्ट्रिसियन-१
115	222090	कारपोरल पुट्टकू अरमुगा गोण्डर जानकी-रमन, इलेक्ट्रिसियन-१
116	204731	कारपोरल रामाचार राजागोपाल, फिट्रूर-११ ई०
117	18495	कारपोरल रतन लाल शर्मा, एम० टी० डी०
118	216013	कारपोरल वीरसिंह दसान्नय अफाले, वायरलेस ओपरेटर मैकेनिक-१
119	256066	एयरक्राफ्ट्समैन गरुड़ बाल श्रीधर, राडार ओपरेटर

वाई० डी० गणेशिया, राष्ट्रपति के सचिव

योजना आयोग

योजना कार्य समिति

संकरण

नई दिल्ली-१, दिनांक 26 अक्टूबर 1966

आदिम जाति विकास कार्यक्रम सम्बन्धी अध्ययन दल

मं० यो० का० स०/प्रशासन/16(1)/66—अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं के अभिन्न अंग है। यद्यपि कई दिशाओं में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि चौथी तथा पांचवीं

योजना अवधियों के दौरान आदिम जाति के लोगों में आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को और भी अधिक तीव्रतर किया जाय। आदिम जाति जन समुदाय के कल्याण तथा समस्त देश की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि समृद्धि के स्तर में बढ़ोत्तरी की जाय, आर्थिक अवसरों का विस्तार किया जाय और उनकी देश की बाकी जनसंख्या के साथ अधिक अभिभावता स्थापित की जाय।

2. चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे की रूपरेखा में आदिम जाति जन समुदाय के कल्याण से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध किये गये हैं, और उन दिशाओं का भी संकेत दिया गया है जिन की ओर वर्तमान विकास कार्यक्रमों को नया मोड़ दिया जाना है। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर यह आवश्यक हो गया है कि आदिम जाति जन समुदाय के लिए योजनाओं का निरूपण किया जाय जिस से यह समुदाय सामान्य विकास के लाभांशों से पर्याप्त भाग प्राप्त कर सके तथा अपनी आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान कर सके। इन सिफारिशों को व्यावहारिक रूप देने तथा आदिम जाति क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं एवं दशाओं के अनुरूप विकास की ओर योजनायें तैयार करने के उद्देश्य से, योजना आयोग के सुझावपर, योजना कार्य समिति ने आदिम जाति विकास कार्यक्रम सम्बन्धी अध्ययन दल का गठन किया है। इसके सदस्य निम्न प्रकार हैं:

- |                                 |                                 |         |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| (1) श्री पी० शिलो आबो,          | बूतपूर्व मुख्य मंत्री, नागालैंड | अध्यक्ष |
| (2) श्री एल० एम० श्रीकान्त,     | आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली   | सदस्य   |
| (3) श्री बी० मेहता, आई० ए० एस०, | मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार      | सदस्य   |

3. यह अध्ययन दल, योजना आयोग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त, सामुदायिक विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से निकट का सम्बन्ध रखकर कार्य करेगा। राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श कर, अध्ययन दल प्रत्येक राज्य से एक या अधिक सदस्य संयोजित करेगा। ये सदस्य सम्बन्धित राज्य के आदिम जाति विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दल के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

4. इस प्रकार विस्तृत अध्ययन दल, प्रत्येक राज्य में आदिम जाति जन समुदाय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं की सीधी जानकारी प्राप्त करेगा, आदिम जाति विकास, कार्यक्रमों विशेष-कर तीसरी योजना के दौरान उनके कार्य का मूल्यांकन करेगा और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किये जाने वाले विकास कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत एवं विशिष्ट सिफारिशें करेगा। आदिम जाति जन समुदाय को विभिन्न क्षेत्रों के विकास के यथासम्बन्धी लाभान्वित करने के उपायों पर विशेष बल दिया जायेगा। प्रत्येक राज्य में आदिम जाति विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों तथा तन्त्र को भजवूत बनाने पर अध्ययन दल विशेष ध्यान देगा। यह आदिम जाति जन समुदाय में नेतृत्व एवं संस्थानों के विकास के लिये जो कदम उठाये जाने जाहरी हैं उनके बारे में भी सुझाव देगा, ताकि वे आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यों में पूरी तरह सहभागिता प्राप्त कर सकें।

5. आशा है कि अध्ययन दल एक वर्ष की अवधि के अन्दर अपना कार्य पूरा कर देगा।

6. अध्ययन दल का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

8. आदेश दिया जाना है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाये।

ए० एम० के० स्वामी, अवर सचिव  
कृत सचिव, योजना कार्य समिति

## उद्योग मंत्रालय

## संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1966

विषय—भारी वैद्युत उपकरण—एक समश्वयकारी समिति का गठन।

सं २५-६९/६६-एच० ई० सी० एच० ई०—  
 देश में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत उत्पन्न करने एवं पारेषण के लिये आवश्यक भारी वैद्युत उपकरणों का निर्माण करने तथा विद्युत बायलरों के निर्माण के लिए भी अब पर्याप्त क्षमता स्थापित की जा चुकी है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाय तो आगामी कुछ वर्षों में सम्पूर्ण देश की विद्युत परियोजनाओं के लिये जिन भारी वैद्युत उपकरणों की आवश्यकता विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी कारखानों के लिये होगी उन्हें देश में ही उत्पादन करके प्राप्त किया जा सकता है। प्रचलित विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति को देखते हुए इसका सुनिश्चय कर लेना आवश्यक है कि देश में उपलब्ध उत्पादन क्षमता का यथासम्भव अधिकतम उपयोग किया जाय तथा वैद्युत संयंत्र और उपकरणों के आयात में कमी की जाये। इस प्रयोजन के लिये इस प्रकार के उपकरणों की मांग और पूर्ति के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाये रखने का सुनिश्चय कर लेना अनिवार्य है। विद्युत परियोजनाओं की मांग तथा विद्युत संयंत्र और उपकरण के लिये अलग-अलग निर्माताओं को उनके द्वारा दिये गये आईरों का निश्चित रूप से पता लगाने के लिये मकालयों ने कुछ उपाय पहले से ही किये हैं। इन उपायों को आगे बढ़ाना है और निर्माणरत कारखानों के उत्पादन कार्यक्रमों तथा उन्हें किस प्रकार अमल में लाया जा रहा है इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है जिससे अनुकूलतम उत्पादन तक पहुंचने के लिये समय-समय पर पहले वासी आवश्यकता पूरी की जा सके तथा विद्युत परियोजनाओं को समय पर उपकरणों का सम्भरण किया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन व्यक्तियों की एक समिति स्थापित करने का निश्चय किया गया है:—

- |  |            |
|--|------------|
| (1) प्रोफेसर एम० एस० थैकर,<br>सदस्य, योजना आयोग  | आध्यक्ष    |
| (2) श्री एन० सुश्रूत्याप्यम्,<br>विशेष सचिव, उद्योग मन्त्रालय                                  | सदस्य      |
| (3) श्री बी० एस० नाग, सलाहकार,<br>योजना आयोग   | सदस्य      |
| (4) श्री के० एल० विज, उपाध्यक्ष,<br>केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग                              | सदस्य      |
| (5) डा० बी० डी० कालेश्कर, उप महानिदेशक,<br>तकनीकी विकास  | सदस्य      |
| (6) श्री सी० एस० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव,<br>वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)             | सदस्य      |
| (7) श्री अजित मजूमदार,<br>संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (समन्वय विभाग)                          | सदस्य      |
| (8) श्री एस० स्वायम्भू, महानिदेशक,<br>विद्युत उद्योग, भोपाल के लिए अनुसन्धान<br>और विकास संगठन | सदस्य      |
| (9) श्री बी० बी० नाग, उप सचिव,<br>उद्योग मंत्रालय  | सदस्य-सचिव |
2. उपर्युक्त समिति के निर्देश-पद निम्न प्रकार होंगे:—
- (1) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न निर्माताओं के, (क) भारी वैद्युत उपकरण, विजली उत्पन्न करने तथा पारेषण दोनों के लिये और (ख) विद्युत बायलरों

के संबंध में निर्माण संबंधी कार्यक्रम की समीक्षा करते रहना;

- (2) निर्माताओं को उनके उत्पादन कार्यक्रम की व्यवस्था करने में सहायता करना जिससे विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकताएं योजनाबद्ध रूप से पूरी की जा सकें; और
- (3) उपकरण निर्माताओं की कच्चे माल, विदेशी मुद्रा तथा उन अन्य सुविधाओं की आवश्यकताओं की जांच करना जिनकी आवश्यकता उन्हें अपने उत्पादन कार्यक्रमों के लिये पड़ती है तथा सरकार को इस बारे में सलाह देना कि इस प्रकार की आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह किस प्रकार पूरा किया जा सकता है।

## आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भजी जाय तथा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

ओंकार नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 1966

सं० १-२/६५-एम० ई० आई०—भूतपूर्व इस्पात, खान तथा भारी हंजीनियरिंग मंत्रालय के संकल्प सं० १-२/६३-एम० ई० आई०, दिनांक 25 मार्च, 1964 में आंशिक रूप भेद करते हुए जिसके द्वारा बाल बिर्यारिंग उद्योग के लिए एक नामिका गठित की गई है। यह निश्चय किया गया है कि श्री लाल सी० वर्मन के स्थान पर जो अब अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, डा० ए० एन० घोष, महानिदेशक, भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली, बाल बिर्यारिंग उद्योग की नामिका के सदस्य होंग।

आई० वी० नुनकत, अवर सचिव

## खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

## (कृषि विभाग)

## संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 1966

सं० १०-१/६५-एफ० ए० आई० टी०—भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन की सम्पर्क समिति की रचना के विषय में इस विभाग की अधिसूचना संख्या १०-१/६५-एफ० ए० आई० टी० दिनांक ९ सितम्बर १९६६ के अन्तर्गत जारी किये गये संकल्प के संशोधन करने का निश्चय किया है। पुनर्गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों की अवधि प्रदर्शित करने वाले पैरे के पश्चात् निम्नलिखित बायक जोड़ा जाये:—

“संसद मदस्यों सहित वे गैर सरकारी सदस्य जो समिति के पुनर्गठन से पहले ही समिति के मनोनीत सदस्य थे, अपनी असमाप्त सदस्यतावधि के लिये पुनर्गठित समिति के सदस्य बने रहेंगे।”

2. सदस्य वाले पैरे के अन्तर्गत अधोलिखित जोड़ा जाये :

“२१ सचिव, कृषि विभाग”

अब समिति के चालीस सदस्य होंगे और उपरोक्त संकल्प में क्रम संख्या २१ से ३९ को २२ से ४० कर दी जाये।

आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिनिधि सभी सम्बन्धितों को दे दी जाये।

जगदीश चन्द्र माथुर, संयुक्त सचिव

### शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 1966

स० एफ० 8-1/66-पी० ई० 4—शिक्षा मंत्रालय की समस्त्यक अधिसूचना, दिनांक 25 अगस्त 1966 के क्रम में—

श्री सुजान भिह,

प्रिसिपल,

राजकीय शारीरिक शिक्षा कालेज,

जोधपुर (राजस्थान)।

को इसी समय से और 27 अगस्त, 1968 तक श्री एस० एम० सईद के स्थान पर शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केन्द्रीय मताहकार बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नामजद किया जाता है।

गोशन लाल आनन्द, अवर सचिव

### अम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(अम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 1966

स० ई० एन्ड पी०-4/1/36/66—केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3(बी) के अनुसार और इसी मर्यादा की तारीख 9 मिस्रबर, 1966 की अधिसूचना का अधिलंघन

### PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi the 27th October 1966

No 76-Pres/66—The President has been pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the following officers and other ranks mentioned in the despatches received by the Defence Minister from the Chief of the Army Staff —

*Operations in Kutch and on India Pakistan borders during 1965 Armoured Corps*

- 1 Bugider Swarn Singh Jaspal (IC 1096), 3 Cavalry
- 2 Brigadier Biswa Nath Sarkar (IC 1417), Central India Horse
- 3 Colonel Bharat Singh (IC 1777) 9 Horse
- 4 Lieutenant Colonel Jaiwant Parkash Ram Dalvi (IC-3223), 8 Cavalry
- 5 Lieutenant Colonel Hari Singh (IC 5689), 18 Cavalry
- 6 Major Satinder Varma (IC-7755), 2 Lancers
- 7 Major Gurdev Singh Kler (IC-5340), 18 Cavalry
- 8 Major Bhisham Ohri (IC-1290) 44 Horse
- 9 Major Parduman Singh (IC-2236), 62 Cavalry
- 10 Major Hardaya Kaul (IC-3941), 2 Lancers
- 11 Major Krishan Lal Duggal (IC 4011), 4 Horse
- 12 Major Shivraj Singh (IC-5085), 17 Horse
- 13 Major Kanwar Maharaja Kumar Singh Barach (IC-5195), 62 Cavalry
- 14 Major Padamit Singh (IC-6113), 3 Cavalry
- 15 Major Ravinder Madhavan (IC-7056), 16 Cavalry
- 16 Major Rajpal Singh (IC-11210) 4 Horse
- 17 Major Satish Chandra Rai Dewan (IC 5104) 9 Horse
- 18 Major Rekhiold Christian (IC-4486), 18 Cavalry
- 19 Major Nihal Singh Sandhu (IC-6638), 3 Cavalry
- 20 Major Verinder Singh (IC-7322), Poona Horse
- 21 Captain Ajai Singh (IC-7745), 17 Horse
- 22 Captain Surinder Singh (IC-10008), 17 Horse
- 23 Captain Arun Kumar Gautama (IC 10489), 16 Cavalry
- 24 Captain Robindra Dewan (IC-11575), 16 Cavalry
- 25 Captain Kanwarjit Singh Anand (IC-11878), 2 Lancers
- 26 Captain Kirampal Singh Sidhu (IC-12120), 62 Cavalry
- 27 Captain Joginder Pal Singh (IC 12512), 16 Cavalry
- 28 Captain Ravi Malhotra (IC 13881), 4 Horse
- 29 Captain Thozhothankattu Veetil Pazhanan Chandran (IC-13856) 3 Cavalry
- 30 Captain Jasbir Singh Kanwal (IC-13072), 17 Horse  
*(Posthumous)*
- 31 Lieutenant Kuldeep Singh (IC 14478), 20 Lancers
- 32 2/Lt Vinay Kalista (IC-16043), 16 Cavalry  
*(Posthumous)*
- 33 2/Lt Vijay Kumar Kapoor (IC-15861), 17 Horse

करते हुए भारत सरकार एवं द्वारा श्री एन० डी० सुन्दरावादीवेलु, सह शिक्षा-सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय को श्री एन० ओ० जोगी, मह सचिव, स्कूल शिक्षा व्यूगे, शिक्षा मंत्रालय के स्थान पर केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड में शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि नियुक्त कर्नी है।

2 नद्दनसार 20 दिसम्बर, 1958/29 अग्रहायण, 1880 के भारतीय राजपत्र के भाग 1, खड 1 में प्रकाशित श्रम और राजगार मंत्रालय की अधिसूचना सख्ता ई० एन्ड पी० 4 (24)/58, तारीख 12 दिसम्बर, 1958 (समय-समय पर मशोधित) में निर्दिष्ट प्रविष्टि—

“2 श्री एन० ओ० जोगी,

सह सचिव,

स्कूल शिक्षा व्यूरो, शिक्षा मंत्रालय,

नई दिल्ली”

के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए

“2 श्री एन० डी० सुन्दरावादीवेलु,

सह शिक्षा-सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय,

नई दिल्ली”

हमगंज छावडा, अवर सचिव

- 34 2/Lt Subir Chand Mathur (EC 56557) 4 Horse
- 35 2 Lt Ajinder Singh Bal (IC-13916) 9 Horse
- 36 2/Lt Kirti Kumar Kakkar (FC 50851), 9 Horse
- 37 2/Lt Ram Parkash Joshi (EC-54116) 3 Cavalry
- 38 2/Lt Tejinder Singh Shergill (IC 15786), 9 Horse
- 39 JC 6265 Risaldar Rajinder Singh, 17 Horse
- 40 JC 15054 Risaldar Chenchal Singh, 4 Horse
- 41 JC 55617 Risaldar Ratan Singh, 9 Horse
- 42 JC-4711 Risaldar Jagat Singh, 3 Cavalry
- 43 JC 497 Risaldar Pvate Lal, 17 Horse
- 44 JC-6273 Risaldar Kundun Singh 4 Horse
- 45 JC 27040 Naib Risaldar Shunmugam, 16 Cavalry  
*(Posthumous)*
- 46 1004568 Naib Risaldar R Sutyanrayana, 16 Cavalry
- 47 JC 22738 Naib Risaldar Amar Singh, 2 Lancers
- 48 JC 21524 Naib Risaldar Sultan Singh, 62 Cavalry
- 49 JC 25327 Naib Risaldar Bijai Pal Singh 9 Horse
- 50 JC 16048 Naib Risaldar Chander Bhan, 3 Cavalry
- 51 JC 21525 Naib Risaldar Suchet Singh, 4 Horse
- 52 NYA Naib Risaldar Jarnail Singh 4 Horse
- 53 JC-25331 Naib Risaldar Surat Singh, 4 Horse  
*(Posthumous)*
- 54 JC 12044 Naib Risaldar Umed Singh, 18 Cavalry
- 55 1009041 Daffadar Jasmer Singh, 4 Horse
- 56 1129590 Daffadar Iadhoo Singh, 18 Cavalry
- 57 1016839 Daffadar Rajesh Singh, 18 Cavalry  
*(Posthumous)*
- 58 1017025 Daffadar M M Poovappa, 16 Cavalry  
*(Posthumous)*
- 59 1019813 Daffadar Balwan Singh, 17 Horse
- 60 7015630 Daffadar Jagdish Lal, 4 Horse
- 61 1011697 Daffadar Raj Singh, 3 Cavalry
- 62 1009683 Daffadar Mohan Lal Central India Horse
- 63 8543355 Daffadar S D Ashirwad Singh, 9 Horse
- 64 1023689 Lance Daffadar Pabudan Singh, 17 Horse
- 65 1027016 Lance Daffadar Sube Singh, 17 Horse
- 66 1022630 Lance Daffadar Prhlad Singh, 9 Horse
- 67 1017332 Lance Daffadar Daya Nand Singh, Cavalry
- 68 1019545 Lance Daffadar Rattan Singh, 3 Cavalry
- 69 1022499 Lance Daffadar Bhanwar Singh 20 Lancers
- 70 1022961 A/Lance Daffadar Bakhshish Singh Rakkar, 9 Horse
- 71 1026939 A/Lance Daffadar Gurdev Singh 7 Cavalry
- 72 1033094 Sowar Jagdish Chand 4 Horse
- 73 1033835 Sowar Shakti Chand 4 Horse
- 74 1026816 Sowar Turlok Singh 17 Horse,
- 75 1027736 Sowar Raghbir Singh 17 Horse
- 76 7030681 Craftsman Jaswant Singh, 16 Cavalry
- 77 1023867 Sowar Pritam Singh, 4 Horse

78	1032869	Gunner Raghbir Singh, 18 Cavalry
79	7047911	Craftsman Janardan Gurgane, 9 Horse
80	1033868	Sower Anup Singh, 9 Horse
81	1034550	Sower Mukand Singh, 9 Horse
82	1025477	Sower Sohan Singh, 9 Horse
83	1023213	Sower Om Parkash Singh, 3 Cavalry
84	1024103	Sower Mata Deen, 3 Cavalry
85	1028753	Sower Dharpal Singh, 3 Cavalry
86	1024136	Sower Amrit Singh, 9 Horse
87	1032677	Sower Nihal Chand, 9 Horse
88	1026095	Sower Mohan Singh, 20 Lancers
89	1033545	Sower Kushal Singh, 20 Lancers
90	1024387	Sower Chanchal Singh, 4 Horse
91	1029366	Sower Kuldip Singh, 9 Horse

*Regiment of Artillery*

92	Brigadier Som Dev Gupta (IC-579)
93	Brigadier Brij Bhushan Bhatnagar (IC-2709)
94	Brigadier Surat Singh (IC 2712)
95	Brigadier James Blafse Elliot Fridell (IC-2732)
96	Brigadier Jhanda Singh Sandhu (IC 635)
97	Brigadier Om Prakash Malhotra (IC-478)
98	Brigadier Gurbaq Singh Gill (IC 560)
99	Brigadier Sahib Singh Kalha (IC 406)
100	Lieutenant Colonel Kunhiam Venugopal (IC-4334), Vi C
101	Lieutenant Colonel Harbaksh Singh Sihota (IC- 2538)
102	Lieutenant Colonel Krishnan Narayanan Pandalar (IC 2069)
103	Lieutenant Colonel Jangit Singh Bawa (IC-730)
104	Major Keshiv Chander Dutta (IC-5146)
105	Major Rish Dev Datta (IC 4496)
106	Major Ravindra Nath Ummat (IC-4220)
107	Major Rajinder Singh Chowdhry (IC-8099)
108	Major Ashok Kumar Gour (IC-10083)
109	Major Saran Parshad (IC 4841)
110	Major Kr Sawai Singh Shekhawat (TA 40384)
111	Major Dhanwant Singh Bahl (IC-4842)
112	Major Keshari Singh (IC-7249)
113	Major Dharam Paul Bahl (IC 7366)
114	Major Kailash Nath Ganju (IC-12037)
115	Major Kurus Minochar Babycon (TA-40304).
116	Major Krishan Singh (IC 6034)
117	Major Birendra Singh (IC-5342)
118	Major Girdhari Lal Ganjoo (IC-7286)
119	Major Madan Mohan Lal Sehgal (IC-8186)
120	Major Narendra Nath Riwat (IC 6451)
121	Major Krishan Moti Ram Chandra (IC-7823)
122	Major Hukley Narain Minocha (IC-4455)
123	Captain Manjit Singh Reen (IC-12439)
124	Captain Harnam Grover (IC-12483)
125	Captain Satish Chander Magotra (IC-13265)
126	Captain Dev Karan Khola (IC-15574) ( <i>Posthumous</i> )
127	Captain Data Ram (IC-15552)
128	Captain Krishan Kumar Mittal (IC-12331)
129	Captain Harcharan Singh Chaudhary (IC-11078)
130	Captain Ajit Singh Yadav (IC-12378)
131	Captain Hiriyaka Mohan Rao (IC 13784)
132	Captain Kushner Bhagwan Singh Gill (IC-15557)
133	Captain Ravinder Singh Grewal (EC-51410)
134	Captain Ravi Kumar Jangar (IC-11113)
135	Captain Kesavapillu Nelakantha Bhargavan Nair (EC 55954)
136	Captain Ajmer Singh (IC 53571)
137	Captain Gurnam Singh (SI 271)
138	Captain Harcharan Singh Dhatt (LC 51837)
139	Captain Philip Selvi Minoharan Chhelhah (IC 14205)
140	Captain Gurbax Singh Sihota (IC-15741).
141	Captain Prahbakar Tryambak Patil (EC-56783)
142	Captain Harbans Singh (IC 13181)
143	Lieutenant Swantantr Kumar Mediratta (IC 15469)
144	Lieutenant Kuldip Singh Thapa (IC-15545)
145	Lieutenant Vaidevi Sachal (IC-15525) ( <i>Posthu- mous</i> )
146	Lieutenant Sudarshan Kumar Suri (IC-14008).
147	Lieutenant Dhirendra Singh Hada (IC-15578)
148	2 Lt Yash Paul Koura (IC-15738)

149	2/Lt Muniswamy Mahadevan (EC-56727)
150	2/Lt Jagr Singh (IC-15472)
151	2/Lt Maharaj Singh (EC-59360).
152	2/Lt Madachumpara Ravuani Dinesan (EC-53113).
153	2/Lt Gurcharan Singh Rekhi (EC-56910)
154	2/Lt Sudesh Mohan Behal (EC-56168)
155	2/Lt Minno Noswirwan Panthaki (IC-15488)
156	2/Lt Jagdish Singh Pahalwar (EC-56835)
157	2/Lt Ajit Chavan (IC-15959)
158	2/Lt Surinder Singh Oberoi (EC-53345)
159	2/Lt Sudarsan Lal Datta (EC-52830)
160	JC-4525 Subedar Miyoi Ram Singh ( <i>Posthumous</i> )
161	JC-17335 Subedar Harbans Singh
162	JC 4416 Subedar R N A Ummat
163	JC 6298 Subedar Sarjeet Singh
164	JC-4019 Subedar Ram Singh
165	JC 12532 Subedar Dalip Singh
166	JC 14354 Subedar Jarnail Singh
167	JC-25777 Naib Subedar Shiam Singh Gurung
168	JC 28610 Naib Subedar K Madhavan Nair
169	JC 17391 Naib Subedar Babu Singh
170	JC 28514 Naib Subedar Bal Krishna
171	JC-32832 Naib Subedar Joginder Singh
172	1136704 Battalion Havildar Major J Anthony
173	1151792 Battalion Havildar Major Kahan Singh ( <i>Posthumous</i> )
174	1130095 Havildar Govind Mane
175	9045607 Havildar Tirlok Singh ( <i>Posthumous</i> )
176	1144051 Havildar Naurang Lal
177	1154848 Havildar Om Parkash
178	1132977 Havildar Mohinder Singh ( <i>Posthumous</i> )
179	1132124 Havildar Dorai Swamy
180	1132180 Havildar Ram I akhan Singh
181	3342274 Havildar Nirmal Singh
182	1142413 Havildar M Karuppaiah
183	3336858 Lance Havildar Sawnder Singh
184	1206272 Lance Havildar Mangal Singh ( <i>Posthumous</i> )
185	3336858 Lance Havildar Sawnder Singh
186	1130815 Naik (Driver OP ) D Arumugham
187	1144065 Naik Rajgopalan
188	1154750 Naik Nanku Ram ( <i>Posthumous</i> )
189	1129098 Naik Harbans Singh
190	1144088 Naik Sajjan Singh
191	1143578 Naik T T Krishna Murthy
192	1158016 Naik Ramashankar Singh.
193	1140623 Naik (Now Havildar) K V Ulhannan
194	1148483 Naik Karan Singh
195	1149742 Naik Shankar Desai
196	1142403 Naik P Anthony
197	1162466 Lance Naik Shaik Ismail
198	1142922 Lance Naik (OWA) Jaspal Singh ( <i>Posthu- mous</i> ).
199	1148218 Lance Naik Harbhajan Singh
200	1153702 Lance Naik Richpal Singh ( <i>Posthumous</i> )
201	1176245 Lance Naik Kunji Krishnan Rajappan ( <i>Posthumous</i> )
202	1154250 Lance Naik Dhareppa Hattali
203	1152743 Lance Naik Sheo Naik Singh
204	11088818 Lance Naik (OWA) Hukam Chand
205	1157518 Lance Naik Nagabhushanam
206	1144784 Lance Naik Amrik Singh
207	3342580 Lance Naik Mohinder Singh
208	1149015 Lance Naik Sakattar Singh
209	1158676 Gunner Jasbir Singh
210	1174321 Gunner Amrit Singh
211	1176562 Gunner Rani Krishan
212	1165850 Gunner Rohtas Singh ( <i>Posthumous</i> )
213	1166297 Gunner (TA) Jadunath Tiwari
214	1192508 Gunner Nagin Chand ( <i>Posthumous</i> )
215	1196927 Gunner Jai Bhagwan ( <i>Posthumous</i> )
216	1190014 Gunner Driver Chandian
217	1158856 Driver Paul Sebastian
218	1141528 Waiter Mess L Duryodhan
219	1165875 Gunner (OWA) Baldev R J
220	1216323 Gunner (OWA) Net Ram
221	1219256 Gunner (OWA) Ram Audh Singh, ( <i>Pos- thumous</i> )
222	1190436 Gunner (OWA) Paharu Ram

223. 1215377 Gunner (OWA) Kanwal Singh.  
 224. 11088450 Gunner (OWA) Barl Ram  
 225. 11088978 Gunner Nand Lal.  
 226. 1160202 Gunner (OWA) Sadhu Singh  
 227. 1165623 Gunner Ranjit Singh. *(Posthumous)*

*Engineers*

228. Lieutenant Colonel Daljit Singh (IC-7242).  
 229. Lieutenant Colonel Narinder Lal Bery (IC-2332).  
 230. Lieutenant Colonel Nand Saroop Kumar (IC-1685).  
 231. Shri Hans Raj Gulati (MES-25711) GE  
 232. Major Gurdyal (IC 5087).  
 233. Major Joginder Singh (IC 7693).  
 234. Major Sunandan Kumar (IC-8584).  
 235. Major Eknath Balakrishna Jayawant (IC-6698).  
 236. Captain Jasbir Singh Rai (EC-50933).  
 237. Lieutenant Surendra Kumar Bhatia (IC-15031).  
 238. 2/Lt. Venkata Chalapathi Rao Kommana (EC-56830).  
 239. 2/Lt. Ajmer Singh (EC-54915).  
 240. 2/Lt. Dwarka Dass Abrol (EC-58385).  
 241. 2/Lt. Mulakudi Arunachalam Lakshmanan (EC-57514).  
 242. JC-34191 Naib Subedar Piara Singh.  
 243. JC-14723 Naib Subedar Jai Singh Ghorpade.  
 244. 1319396 Lance Havildar Govindarajulu  
 245. 1421131 Lance Havildar Hari Har Singh  
 246. 1321479 Naik Chakravarthy.  
 247. 1313716 Naik Abraham.  
 248. 1322219 Sapper Hari Dass.

*Signals*

249. Brigadier Jaswant Singh (IC-433).  
 250. Brigadier Shaval Nusserwanji Antia (IC-2130).  
 251. Lieutenant Colonel Pallithode Krishnan Unni (IC-1919).  
 252. Lieutenant Colonel Sardari Lal Juneja (IC-1888).  
 253. Lieutenant Colonel Chander Prakash Katarya (IC-4439).  
 254. Major Ramesh Bhawani Shankar Babukar (IC-6588).  
 255. Major Gurdial Singh (IC-1907).  
 256. Major Inder Mohan Chhabra (IC-4491).  
 257. Captain Subhash Kumar Datta (IC-13593).  
 258. 2/Lt. Suresh Chandra Dewan (EC-51686).  
 259. 2/Lt. Bhupinder Singh (EC-59059).  
 260. 2/Lt. Man Mohan (EC-59007).  
 261. 2/Lt. Kandaswamy Veluswamy (IC-15375).  
 262. 2/Lt. Curian Joseph (EC-54961).  
 263. 2/Lt. Pritam Singh Parmar (EC-54876).  
 264. JC-57478 Subedar Major M. Chelliah Nelson.  
 265. JC 1065 Subedar Major Pritam Singh.  
 266. JC 22368 Subedar Harbans Lal Ratra.  
 267. JC-32485 Naib Subedar K. Appukuttan Nair.  
 268. JC-23213 Naib Subedar Karam Singh.  
 269. JC 29365 Naib Subedar Ram Chand.  
 270. 6259238 Havildar Manohar Dutt.  
 271. 6250179 Havildar Harbans Singh.  
 272. 6262889 Lance Havildar Hambir Rao Pandurang Shinde  
 273. 6241447 Lance Havildar M. John.  
 274. 6256754 Lance Havildar Gurnam Singh.  
 275. 6246397 Lance Havildar K. Ezhumalai.  
 276. 6246806 Naik V. Lingappan.  
 277. 6246437 Naik P. Kelan.  
 278. 6259397 Naik Sansar Chand.  
 279. 6263174 Naik Rameshwar Singh.  
 280. 6272298 Naik K. Narayanan Nair.  
 281. 6266270 Naik Chandrasekharan Pillai.  
 282. 6294485 U/Lance Naik Kesar Singh.  
 283. 6285045 U/Lance Naik Amar Singh.  
 284. 6275328 U/Lance Naik T. V. Pandu Rangan. *(Posthumous)*  
 285. 6319359 Signalmans Trinath Das  
 286. 6290612 Signalmans Kol Bahadur Thappa

*Infantry*

287. Brigadier Manmohan Singh (IC-3159).  
 288. Brigadier Nand Kishore Lal (IC-230).  
 289. Brigadier Premangsu Chowdry (IC-902).  
 290. Brigadier Naranjan Singh (IC-852), MC.

291. Brigadier Avtar Krishan Luthera (IC-1404), MC.  
 292. Brigadier Prakash Singh Grewal (IC-2039).  
 293. Colonel Inder Sethi (IC-3827), 1 Gorkha Rifles  
 294. Colonel Anant Maharudrappa Kadkol (IC-1751), Grenadiers.  
 295. Lieutenant Colonel Megh Singh (IC-5682), V.R.C., Guards.  
 296. Lieutenant Colonel Jai Singh (IC-2141), Guards  
 297. Lieutenant Colonel Joseph Ephraim Jhirad (IC-3861), 8 Garhwal Rifles. *(Posthumous)*  
 298. Lieutenant Colonel Mohendar Lal Whig (IC-3940), 2/5 Gorkha Rifles.  
 299. Lieutenant Colonel Sorab Pestonji Kutky (IC-2060), Rajputana Rifles.  
 300. Lieutenant Colonel Krishna Pillai Padamanabhan Nair (IC-5586), Rajput.  
 301. Lieutenant Colonel Davendra Nath Singh (IC-875), 9 Mahar.  
 302. Lieutenant Colonel Erlam William Carvalho (IC-4711), 1 Sikh LI.  
 303. Lieutenant Colonel Farhat Bhatty (IC-2343), 4 Grenadiers.  
 304. Lieutenant Colonel Shankar Rao Demaji Parab (IC-1695), 19 Maratha.  
 305. Major Anand Mohan Tiwari (IC-1700), 2/1 Gorkha Rifles  
 306. Major Cyril Arthur Quinn (IC-1719), 6 Garhwal Rifles.  
 307. Major Amarendra Kumar Bagchi (IC-2378), 5/9 Gorkha Rifles.  
 308. Major Ved Prakash Bhasin (IC-6903), 1/8 Gorkha Rifles.  
 309. Major Prem Singh Bohra (IC-7315), 2/1 Gorkha Rifles.  
 310. Major Bihram Shamsher Bhandari (IC-7359), 6 Garhwal Rifles.  
 311. Major Hoshiar Singh (IC-10058), 9 Dogra.  
 312. Major Anand Kumar Srivastava (IC-13039), 8 J&K Rifles  
 313. Major Rishi Dev Vatsa (IC-13654), 3 Jat. *(Posthumous)*  
 314. Major Guntur Butchi Venkata Lakshmana Sastry (IC-7733), 7 Punjab.  
 315. Major Dharam Pall (IC-10484), 9 Madras.  
 316. Major Krishan Lal Kochhar (IC-4844), 18 Rajputana Rifles.  
 317. Major Aqbal Hussain Khan (IC-12023), 18 Rajputana Rifles  
 318. Major Jagjit Singh (IC-6224), 18 Rajputana Rifles.  
 319. Major Baljit Kumar Mehta (IC-5445), 6 Dogra.  
 320. Major Subhash Behari Verma (IC-7460), 19 Punjab.  
 321. Major Parmindar Singh (IC-13825), 19 Punjab.  
 322. Major Bhupendra Bhole (IC-11583), 4/8 Gorkha Rifles.  
 323. Major Roshan Lal (IC-9271), 2/9 Gorkha Rifles.  
 324. Major Sarabjit Singh Ahluwalia (IC-11696), 2 Grenadiers.  
 325. Major Kailash Chandra Kalley (IC-6706), 2 Sikh.  
 326. Major Prasanto Kumar Mitra (IC-5277), 3/11 Gorkha Rifles.  
 327. Major Ravinder Devasar (IC-12528), 3/11 Gorkha Rifles.  
 328. Major Jaswinder Pal Singh Sandhu (IC-13945), 6 Bihar.  
 329. Major Hari Singh (IC-5536), 13 Grenadiers.  
 330. Major Rajender Kumar Bali (IC-11178), V.R.C., 2 Sikh LI.  
 331. Major Erusu Lakshmana Murthy (IC-5279), 3/3 Gorkha Rifles.  
 332. Major Rattan Nath Sharma (IC-5270), 9 Punjab.  
 333. Major Shamsher Bahadur Gurung (IC-10433), 1 Garhwal Rifles.  
 334. Major Rajinder Kumar Mehta (IC-13225), 20 Punjab.  
 335. Major Kirpal Singh Kohli (IC-7014), 9 Dogra.  
 336. Major Sis Ram Yadav (IC-12406), 3 Jat.  
 337. Major Dayal Parshad Nayer (IC-12406), 3 Jat  
 338. Major Bikram Singh Chhetri (IC-12960), 4 Rajput.  
 339. Major Menon Mangapura Chandra Sekharan (IC-4723), 1 Guards.  
 340. Captain Krishna Kant Tiwari (IC-13978), 1 Madras.  
 341. Captain Hari Raj Singh (IC-12673), 5/9 Gorkha Rifles.  
 342. Captain Hargurdev Singh Chopra (EC-50690), 4/8 Gorkha Rifles.

343. Captain Sham Singh Pathania (IC-13581), 3 J&K Rifles.
344. Captain Harbhajan Singh (IC-14588), 2 Dogra.
345. Captain Dalbir Singh Bajwa (IC-14551), 3 Dogra.
346. Captain Tarlok Singh Randhawa (IC-14623), 14 Jat.
347. Captain Surjit Singh (IC-12618), 15 Dogra.
348. Captain Sanat Kumar Vishwanath Satho (IC-14810), 9 Mahar.
349. Captain Ravender Singh Pathania (IC-13254), 1 Dogra.
350. Captain Suresh Narain Bhatnagar (IC-14083), 4 Rajput.
351. Lieutenant Virendra Kumar (IC-13987), 9 Kumaon.
352. Lieutenant Ram Singh (EC-50605), 4 Rajputana Rifles.
353. Lieutenant Gurbakhsh Singh (IC-14452), 7 Punjab.
354. Lieutenant Kurnail Singh (EC-51713), 2 Dogra. (Posthumous)
355. Lieutenant Jasbir Singh Grewal (IC-14473), 14 Punjab.
356. Lieutenant Dharam Singh Biadwan (EC-52549), 3 Grenadiers.
357. Lieutenant Hoshiar Singh (IC-14608), 3 Grenadiers.
358. Lieutenant Thakur Dass Thakur (JKC-19), 3 J&K Militia.
359. 2/Lt. Shivinder Pal Singh (IC-16144), 5/5 Gorkha Rifles.
360. 2/Lt. Rajinder Singh (EC-52490), 1 Sikh LI.
361. 2/Lt. Sudesh Chander Sandal (EC-56353), 9 Dogra.
362. 2/Lt. Lingangouda Kenchangouda Nadir (EC-56547), 6 Maratha. (Posthumous)
363. 2/Lt. Shiv Dayal Bhanoo (EC-59205), 6 Garhwal Rifles.
364. 2/Lt. Gurcharanjit Singh (EC-54352), 7 Punjab. (Posthumous)
365. 2/Lt. Gagan Kumar Varma (EC-56395), 2 Rajputana Rifles.
366. 2/Lt. Amarjit Singh (EC-57120), 2 Mahar.
367. 2/Lt. Mahinder Singh (EC-57517), 14 Punjab.
368. 2/Lt. Balasaheb Siddojirao Barge (EC-54720), 20 Maratha.
369. 2/Lt. Ravindra Mahadik (EC-59329), 7 Maratha LI.
370. 2/Lt. Keshav Singh (IC-15797), 2 Sikh.
371. 2/Lt. Prithi Singh Dagar (EC-55355), 2 Grenadiers.
372. 2/Lt. Krishan Chand (EC-53195), 11 J&K Militia.
373. 2/Lt. Mangat Ram (EC-56775), 5/8 Gorkha Rifles.
374. 2/Lt. Ishwari Dayal Khare (EC-56500), 4 Kumaon.
375. 2/Lt. Din Dayal Dhoundiyal (EC-54959), 6/5 Gorkha Rifles.
376. 2/Lt. Gurdev Singh (IC-14367), 1 Dogra.
377. 2/Lt. Ranvijay Singh Ranawat (IC-15802), 3 Guards.
378. 2/Lt. Krishan Kumar Ghopatra (EC-54493), 2 Sikh LI.
379. 2/Lt. Baldev Singh Bajwa (EC-58948), 1 Garhwal Rifles.
380. 2/Lt. Puran Chander Pande (EC-56549), 3 Mahar.
381. 2/Lt. Ranvir Singh (EC-51818), 3 Guards.
382. 2/Lt. Balbir Singh Grewal (EC-54907), 5 Guards.
383. 2/Lt. Piru Ram (EC-58244), 3 Guards.
384. JC-2007 Subedar Major (Honorary Lieutenant) Prabhu Ram, 5 Jat.
385. JC-5030 Subedar (Honorary Lieutenant) Bhagat Singh Rawat, 1 Garhwal Rifles.
386. JC-52374 Subedar Major Mohan Singh, 1 Sikh LI.
387. JC-5432 Subedar Major Kirshan Singh Rana, 2/5 Gorkha Rifles.
388. JC-4744 Subedar Major Amar Singh, 9 Punjab.
389. JC-2336 Subedar Major Lachham Singh, 4 Kumaon.
390. JC-38934 Subedar Major Partap Singh, 3 Jat.
391. JC-15996 Subedar Guman Singh, 4 Rajputana Rifles.
392. JC-6367 Subedar Sagarmal Ram, 4 Rajputana Rifles.
393. JC-11031 Subedar Bhupal Singh Gusain, 8 Garhwal Rifles.
394. JC-7095 Subedar Raj Bahadur Singh, 18 Rajputana Rifles.
395. JC-4811 Subedar Saroop Singh, 3 Jat.
396. JC-8259 Subedar Inder Singh, 7 Punjab.
397. JC-18940 Subedar Didar Singh, 7 Punjab.
398. JC-14433 Subedar Shiv Rattan Singh, 2 Rajputana Rifles.
399. JC-12273 Subedar Ramdas Somewanshi, 2 Maratha.
400. JC-5911 Subedar Chaudhari Ram, 9 Punjab.
401. JC-16196 Subedar K. M. Yusuff, 1 Madras.
402. JC-21795 Subedar Buta Ram, 9 Mahar.
403. JC-4818 Subedar Bakshish Singh, 3 Sikh.
404. JC-5155 Subedar Sunder Singh, 3 Sikh.
405. JC-10262 Subedar Damodar Singh, 19 Punjab.
406. JC-16555 Subedar Tek Bahadur Pun, 3/8 Gorkha Rifles.
407. JC-12369 Subedar Indar Singh, 2 Grenadiers.
408. JC-6020 Subedar Raghu Nath Singh, 6 Rajput. (Posthumous)
409. JC-10942 Subedar Balbir Singh, 1 Sikh.
410. JC-1983 Subedar Richpal Singh, 5 Jat.
411. JC-12307 Subedar Shib Saran Rana, 2/5 Gorkha Rifles.
412. JC-14291 Subedar Hansa Singh, 1 Sikh LI.
413. JC-25155 Subedar Jhagger Singh, 8 J&K Rifles.
414. JC-7264 Subedar Chandra Bir Thapa, 2/1 Gorkha Rifles.
415. JC-2100 Subedar Mukhtar Singh, 1 Sikh LI.
416. JC-14670 Subedar Rajendar Singh, 4 Rajput.
417. 9120769 Subedar Gurdev Singh, 11 J&K Militia.
418. JC-5490 Subedar Dip Chand, 2 Grenadiers. (Posthumous)
419. JC-2016 Subedar Duli Chand, 14 Jat.
420. JC-28932 Naib Subedar Om Bahadur Gharti, 5/4 Gorkha Rifles.
421. 2536133 Naib Subedar M. Narayanan Nair, 1 Madras.
422. 2429868 Naib Subedar Charan Singh, 7 Punjab.
423. 2510710 Naib Subedar Jaswant Singh, 14 Punjab.
424. JC-24118 Naib Subedar Baz Singh, 1 Dogra.
425. JC-31748 Naib Subedar Gurdas Singh, 6 Sikh LI.
426. JC-24424 Naib Subedar Shiv Ram, 19 Punjab.
427. JC-27533 Naib Subedar Shiv Charan Singh, 4 Kumaon.
428. 5605147 Naib Subedar Gal Bahadur Ale, 3/8 Gorkha Rifles.
429. JC-24940 Naib Subedar Badri Singh, Rajput.
430. JC-25354 Naib Subedar Surat Singh, 1 Para.
431. JC-33200 Naib Subedar Shankar Singh, 2 Dogra.
432. JC-16816 Naib Subedar Bom Bahadur Thapa, 5/5 Gorkha Rifles.
433. JC-30965 Naib Subedar Narain Ram, 4 Rajput.
434. 9401521 Naib Subedar Tilabikram Rai, 3/11 Gorkha Rifles.
435. JC-21480 Naib Subedar Ram Singh, 4 Kumaon. (Posthumous)
436. JC-29642 Naib Subedar Sachida Nand Singh, 6 Bihar.
437. 2944337 CMH Harbans Lal, 1 Para.
438. 4133511 CHM Ram Swarup, 1 Para.
439. 2536838 CHM Pothikannu Pillai Sivasankara Narayanan, 3 Madras.
440. 2834898 Havildar Mamraj Singh, 4 Rajputana Rifles. (Posthumous)
441. 3132845 Havildar Ram Singh, 6 Jat.
442. 4034522 Havildar Gabar Singh Negl, 8 Garhwal Rifles. (Posthumous)
443. 2539013 Havildar P. J. Mathai, 1 Madras.
444. 5031796 Havildar Dhilan Singh Khanka, 2/1 Gorkha Rifles.
445. 5228977 Havildar Basu Thapa, 2/1 Gorkha Rifles.
446. 2842174 Havildar Shiv Mohan Singh, 18 Rajputana Rifles. (Posthumous)
447. 3138165 Havildar Hari Chand, 3 Jat.
448. 3139131 Havildar Rup Chand, 3 Jat.
449. 2439023 Havildar Lachhman Singh, 7 Punjab.
450. 2438112 Havildar Hari Kishan, 7 Punjab.
451. 2439442 Havildar Tara Singh, 7 Punjab.
452. 2437412 Havildar Kesar Singh, 7 Punjab.
453. 2544043 Havildar Shanmugavel, 9 Madras.
454. 2830357 Havildar Kishor Singh, 2 Rajputana Rifles.
455. 2434974 Havildar Baldev Singh, 7 Punjab.
456. 4142469 Havildar Hari Har Singh, 15 Kumaon.
457. 2436621 Havildar Harbhajan Singh, 9 Punjab. (Posthumous)
458. 5730458 Havildar Kul Bahadur Gurung, 5/8 Gorkha Rifles.
459. 1415610 Havildar Mela Singh, 1 Para.
460. 13711375 Havildar Rattan Bahadur, 3 J&K Rifles.

461. 5735025 Havildar Rambahadur Gurung, 4/8 Gorkha Rifles.
462. 2636511 Havildar Umed Singh, 4 Grenadiers.
463. 2436967 Havildar Rikhi Ram, 19 Punjab.
464. 3135915 Havildar Ram Kishan, 5 Jat. (*Posthumous*)
465. 4035141 Havildar Santal Singh Pundir, 6 Garhwal Rifles.
466. 4035425 Lance Havildar Keshar Singh Bisht, 8 Garhwal Rifles. (*Posthumous*)
467. 4140840 Lance Havildar Kishan Singh, 9 Kumaon.
468. 2536821 Lance Havildar R. Anandan, 1 Madras.
469. 3133927 Lance Havildar Jile Singh, 3 Jat. (*Posthumous*).
470. 2438382 Lance Havildar Sohan Singh, 7 Punjab. (*Posthumous*).
471. 5734196 Lance Havildar Tej Bahadur Gurung, 6/8 Gorkha Rifles.
472. 2540607 Lance Havildar Thankappan Pillai, 9 Madras.
473. 4140455 Lance Havildar Mohan Singh, 3 Kumaon.
474. 3339590 Lance Havildar Dalip Singh, 2 Sikh.
475. 2542724 Lance Havildar Balasubramaniam, 4 Madras.
476. 4035842 Naik Kundan Singh Negi, 8 Garhwal Rifles.
477. 2542730 Naik C. Mohammed Kutty, 1 Madras.
478. 2440243 Naik Paramjit Singh, 7 Punjab.
479. 2439948 Naik Bhajan Singh, 7 Punjab.
480. 2843652 Naik Bishna Singh, 2 Rajputana Rifles.
481. 2548064 Naik Pandarakottilil Moideen, 9 Madras.
482. 2735881 Naik Baburao Patil, 2 Maratha LI.
483. 3947907 Naik Jagat Singh, 1 Dogra.
484. 3947088 Naik Sohan Singh, 1 Dogra.
485. 2844338 Naik Mohindra Singh, 2 Rajputana Rifles.
486. 4435393 Naik Mangal Singh, 6 Sikh LI. (*Posthumous*).
487. 4435377 Naik Pritam Singh, 6 Sikh LI. (*Posthumous*)
488. 9080586 Naik Abdul Gafar Lone, 3 J&K Militia.
489. 13716522 Naik Jagdish Singh, 3 J&K Rifles.
490. 2744422 Naik Shrirang Pol, 20 Maratha.
491. 5729878 Naik Santalri Gurung, 3/8 Gorkha Rifles.
492. 3338657 Naik Surjit Singh, 2 Sikh.
493. 3943484 Naik Sarban Singh, 2 Dogra.
494. 3139688 Naik Amar Singh, 1 Para. (*Posthumous*)
495. 2639242 Naik Thandi Ram, 2 Grenadiers. (*Posthumous*).
496. 4140665 Naik Hari Chand, 3 Kumaon.
497. 10355190 Naik Bihari Lal, INF (TA).
498. 2544081 Naik Raman Nair, 4 Madras. (*Posthumous*)
499. 2544925 Naik P. Sankaranarayana Pillai, 1 Madras. (*Posthumous*)
500. 4036520 Naik Manmohan Singh Negi, 1 Garhwal Rifles.
501. 2539280 Naik Gopala Krishnan, 9 Madras. (*Posthumous*).
502. 4437997 Lance Naik Kartar Singh, 1 Sikh LI.
503. 3946321 Lance Naik Prem Chand, 9 Dogra.
504. 3947096 Lance Naik Samraj Singh, 9 Dogra.
505. 3948476 Lance Naik Hari Ram, 9 Dogra.
506. 4035143 Lance Naik Trilok Singh Rawat, 8 Garhwal Rifles. (*Posthumous*)
507. 5833856 Lance Naik Bishan Singh Thapal 5/9 Gorkha Rifles.
508. 2956242 Lance Naik Gian Chand, 20 Rajput.
509. 2546056 Lance Naik Gagadishan, 1 Madras.
510. 9405656 Lance Naik Shyam Kumar Rai, 5/11 Gorkha Rifles.
511. 3138953 Lance Naik Tulsa Ram, 3 Jat.
512. 2442506 Lance Naik Dass Ram, 7 Punjab. (*Posthumous*)
513. 2440969 Lance Naik Bachan Singh, 7 Punjab. (*Posthumous*)
514. 2440536 Lance Naik Tara Singh, 7 Punjab.
515. 2441780 Lance Naik Jogi Dass, 7 Punjab.
516. 2743812 Lance Naik Bhiva Kumbhar, 19 Maratha.
517. 2945122 Lance Naik Rati Ram, 17 Rajput.
518. 2547975 Lance Naik George Varghese, 9 Madras. (*Posthumous*)
519. 2742539 Lance Naik Bajirao Karande, 2 Maratha LI.
520. 2745399 Lance Naik Shankar Patil, 2 Maratha LI.
521. 3944249 Lance Naik Telu Ram, Dogra.
522. 4154074 Lance Naik Kartar Singh, 11 Kumaon.
523. 3345634 Lance Naik Jalaur Singh, 1 Sikh.
524. 3946775 Lance Naik Joginder Singh, 2 Dogra.
525. 3947307 Lance Naik Krishan Lal, 1 Para. (*Posthumous*).
526. 9120229 Lance Naik Netar Singh, 11 J&K Militia.
527. 4535472 Lance Naik Shivaji Suradkar, 3 Mahar.
528. 4533987 Lance Naik Shivaji Kengar, 3 Mahar.
529. 9202474 Lance Naik Hari Singh, Border BN, INF.
530. 2744867 Lance Naik Kulyan Fadtare, 4 Maratha LI.
531. 5032976 Lance Naik Mangal Bahadur Thapa, 1/1 G.R.
532. 4039085 Lance Naik Ram Singh Rana, 6, Garhwal Rifles. (*Posthumous*)
533. 9204355 Lance Naik Kishan Chander, 10 Mahar.
534. 2747435 Lance Naik Ram Chandra Godse, 19 Maratha.
535. 3138627 Lance Naik Bhup Singh, 3 Jat.
536. 4435762 U/Lance Naik Gajjan Singh, 1 Sikh LI.
537. 2548432 U/Lance Naik Michael, 4 Madras.
538. 2544684 U/Lance Naik Sanjeeva, 9 Madras. (*Posthumous*)
539. 4144838 U/Lance Naik Sher Singh, 4 Kumaon.
540. 3148984 Sepoy Amar Singh, 7 Jat.
541. 3145358 Sepoy Mahavir Singh, 3 Jat.
542. 3142250 Sepoy Kamar Singh, 3 Jat.
543. 2442696 Sepoy Ishar Singh, 7 Punjab.
544. 2450589 Sepoy Bihari Lal, 7 Punjab. (*Posthumous*)
545. 4151493 Sepoy Sitab Singh, 9 Kumaon.
546. 2746215 Sepoy Haris Chandra Shinde, 19 Maratha. (*Posthumous*)
547. 2748674 Sepoy Shantaram Shinde, 19 Maratha.
548. 2557720 Sepoy Sinnasamy Balakrishnan, 9 Madras. (*Posthumous*)
549. 2550811 Sepoy Naganna 9 Madras. (*Posthumous*)
550. 2551161 Sepoy Shree Kumaran Nair, 9 Madras. (*Posthumous*)
551. 2554320 Sepoy Bhaskaran Puthuvall Narayanan, 9 Madras.
552. 2555105 Sepoy Kundari Surya Raju, 9 Madras. (*Posthumous*)
553. 2449276 Sepoy Krishan Chand Sharma, 14 Punjab.
554. 4535977 Sepoy Babu Dhere, 3 Mahar. (*Posthumous*)
555. 2548147 Sepoy Kusuma Sahadevadu, 1 Madras. (*Posthumous*)
556. 4443172 Sepoy Jagir Singh, 6 Sikh LI.
557. 3958712 Sepoy Ronaki Ram, 6 Dogra.
558. 2451553 Sepoy Tarsem Lal, 19 Punjab.
559. 4147350 Sepoy An Singh, 8 Kumaon.
560. 3340668 Sepoy Mohinder Singh, Sikh.
561. 4145999 Sepoy Net Ram, 4 Kumaon.
562. 4146937 Sepoy Mam Chand, 4 Kumaon.
563. 3959483 Sepoy Lakhya Ram, 2 Dogra. (*Posthumous*)
564. 3952756 Sepoy Surender Singh, 2 Dogra.
565. 9093548 Sepoy Budha Singh, 11 J&K Militia.
566. 4441435 Sepoy Jit Singh, 6 Sikh LI. (*Posthumous*)
567. 4443456 Sepoy Bakshish Singh, 6 Sikh LI.
568. 4141513 Sepoy Hoshiar Singh, 8 Kumaon.
569. 4150073 Sepoy Bahadur Chand, 6 Kumaon. (*Posthumous*)
570. 4443456 Sepoy Bakshish Singh, 6 Sikh LI.
568. 4141513 Sepoy Hoshiar Singh, 8 Kumaon.
569. 4150073 Sepoy Bahadur Chand, 6 Kumaon. (*Posthumous*)
570. 4151259 Sepoy Suresh Chandra, 9 Kumaon.
571. 2750694 Sepoy Ganga Ram Jadav, 4 Maratha LI.
572. 4439666 Sepoy Bakshish Singh, 2 Sikh LI.
573. 9204691 Sepoy Kulwant Singh, 10 Mahar. (*Posthumous*)
574. 9204645 Sepoy Balber Singh, 10 Mahar. (*Posthumous*)
575. 3146612 Sepoy Bajrang Lal, 7 Jat.
576. 2438036 Sepoy Ujagar Singh, 7 Punjab. (*Posthumous*)
577. 4443661 Sepoy Budh Singh, 6 Sikh LI.
578. 3151470 Sepoy Sukhbir Singh, 5 Jat. (*Posthumous*)
579. 4039272 Rifleman Balwant Singh Bisht, 8 Garhwal Rifles. (*Posthumous*)
580. 5336676 Rifleman Mulchand Nagarkoti, 5/4 Gorkha Rifles.
581. 4043634 Rifleman Kunwar Singh Negi, 8 Garhwal Rifles.
582. 5435954 Rifleman Man Bahadur Gurung, 2/5 Gorkha Rifles.
583. 9409338 Rifleman Bhushan Kumar Rai, 5/11 Gorkha Rifles.

584. 2852331 Rifleman Kelson Singh, 5 Rajputana Rifles.  
 585. 2352235 Rifleman Roshan Singh, 2 Rajputana Rifles. (Posthumous)  
 586. 2855537 Rifleman Des Raj Singh, 18 Rajputana Rifles  
 587. 5438936 Rifleman Jai Bahadur Thapa, 6/5 Gorkha Rifles.  
 588. 5440024 Rifleman Padam Bahadur Thapa, 6/5 Gorkha Rifles.  
 589. 9405596 Rifleman Lal Man Rai, 3/11 Gorkha Rifles  
 590. 5738903 Rifleman Dol Bahadur Thapa, 4/8 Gorkha Rifles.  
 591. 4148530 Rifleman Prayag Datt, 3 Kumaon. (Posthumous).  
 592. 2645824 Grenadier Sis Ram, 4 Grenadiers.  
 593. 2644964 Grenadier Jai Singh, 4 Grenadiers.  
 594. 2650723 Grenadier Sukhpal Singh, 4 Grenadiers.  
 595. 2650225 Grenadier Ghulam Mehd. 4. Grenadiers. (Posthumous)  
 596. 2649410 Grenadier Baldev Singh, 4 Grenadiers.  
 597. 5441912 Mess Waiter Dharam Chand, 2/5 Gorkha Rifles.  
 598. 3959173 Mess Waiter Nilu, Dogra.

*Army Supply Corps*

599. Colonel Balraj Dewan (IC-2453).  
 600. Lieutenant Colonel Sayed Mazahir Abbas (JC-5250).  
 601. Lieutenant Colonel Sant Priya Ganguli (IC-3652).  
 602. Lieutenant Colonel Kizhakkathil Prasada Chandran Nair (IC-1431).  
 603. Major Kapur Singh Vire (IC-1508).  
 604. Major Alban Joseph D'Cunha (IC-11754).  
 605. Major Kanwar Jawant Singh (IC-2916).  
 606. Captain Arvind Dev Malhotra (IC-7403).  
 607. 2/Lt. Rabindra Singh Bhol (EC-56577).  
 608. 2/Lt. Rama Prasad Samaddar (EC-54262).  
 609. 2/Lt. Prem Dass Malik (EC-55901).  
 610. JC-3101 Risaldar Ram Charan Lal Sharma  
 611. 6560398 Havildar Ajit Singh.  
 612. 6429203 Havildar P. T. Anthony.  
 613. 6348107 Naik (SHT) S. Krishna Moorthy.  
 614. 13807290 Sepoy Driver Kandavachal Govindan Nambar.  
 615. 13806008 Sepoy Driver (MT) Hardev Singh.  
 616. 6620605 Sepoy Driver Chote Lal.  
 617. 13805662 Sepoy Driver (MT) Hakim Singh.  
 618. 6618882 Sepoy Driver Amar Singh.  
 619. 6451340 Driver (AT) Hakim Singh.  
 620. 6453026 Driver (AT) Lila Dhar.

*Corps of Electrical & Mechanical Engineering*

621. Colonel Gursaran Singh (JC-1234).  
 622. Lieutenant Colonel Sharan Singh (IC-6082).  
 623. Major Charanjit Singh (IC-6925).  
 624. Major Nityanand Elhence (IC-6924).  
 625. Major Satyawarie Mukherjee (JC-10798).  
 626. Captain Anup Singh (SL-444).  
 627. Second Lieutenant Aojinder Singh Chowdhury (EC-52970).  
 628. Second Lieutenant Hari Jog Bachan Singh (EC-51366).  
 629. Second Lieutenant Naryan Rao Sethu Madhavan (EC-57645).  
 630. Second Lieutenant Mulki Ganesh Rao (EC-54414).  
 631. JC-3718 Subedar Dina Nath Caind.  
 632. 7009343 Havildar Hari Chind.  
 633. 7013145 Naik Narain Swaroop Sharma.  
 634. 7010788 Naik T. F. Bhanu.  
 635. 7011203 Naik Mohinder Singh.  
 636. 7048593 Craftsman Jagdish Singh.

*Army Medical Corps*

637. Colonel Raman Madhavan Nair (MR-246).  
 638. Colonel Kanwar Partap Singh (MR-201).  
 639. Lieutenant Colonel (Miss) Paulin Menon (N-18279), MNS.  
 640. Major (Miss) Achamma Gheeverghese (N-680924), MNS.  
 641. Major Nitya Nand Sharma (MR-950).  
 642. Major Saktibrata Sur Ray (MR-1298).  
 643. Major Birinchi Prasad Samanta (MR-373).  
 644. Captain Chalil Sankaran Gopinathan (MS-6968).

645. Captain Changaram Kumarath Karunakaran Raja-Gopalai (MS-6997).  
 646. Captain Jayaram Othriyamadath (MS-6884).  
 647. Captain Harnick Singh Maan (MS-7007).  
 648. Captain Disbagh Singh (MR-1762).  
 649. Captain Subhash Govinda Raddy Timmaraddi (M-30283).  
 650. Captain Vallanttil Mani Mani (M-30369).  
 651. Captain Surendra Singh Yadava (MR-1483).  
 652. Captain Krishan Mohan Sethi (MS-6830).  
 653. JC-3239 Subedar Clerk Krishna Dhan Chakrabarti.  
 654. 6780247 Naik Nursing Assistant Jagdish Chandra Mishra.  
 655. 6588022 Lance Naik Kannan.  
 656. 6819326 Sepoy Driver Bhandiram Hajong.  
 657. 6798282 Sepoy Nursing Assistant Mohan Lal Bhat. (Posthumous)  
 658. 6812319 Sepoy Ambulance Assistant Hakum Singh.  
 659. 6801177 Sepoy Nursing Assistant Nikhil Chandra.  
 660. 6810177 Sepoy Babu Lal.

*Defence Security Corps*

661. JC-19285 Naib Subedar Gian Singh.

No. 77-Pres./66.—The President has been pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the following officers and other ranks mentioned in the despatches received by the Defence Minister from the Chief of the Air Staff :—

*Operations in Kutch and on India-Pakistan Borders during 1965*

- Air Commodore Potherv Charuvary Ramachandran (3514), General Duties (Pilot).
- Group Captain Vellore Manickam Radhakrishnan (1769), General Duties (Pilot).
- Wing Commander Cecil Hugh Lawrence Digby (2988), General Duties (Pilot).
- Wing Commander George Douglas Clarke (3295), General Duties (Pilot).
- Wing Commander Jagdish Chandra Varma (3788), Technical/Engineering.
- Wing Commander Jadish Ranganath Bankapur (2986), General Duties (Pilot).
- Wing Commander Malcolm Shirley Dundas Wollen (3641), General Duties (Pilot).
- Wing Commander Muthyalu Dhanraj (3604), General Duties (Pilot).
- Wing Commander Percy Edward Harrington (3239), General Duties (Pilot).
- Wing Commander Rama Iyer Krishna Moorti (3828), General Duties (Navigator).
- Wing Commander Toric Zachariah (3026), General Duties (Pilot).
- Squadron Leader Abraham Mathews (4547), Technical/Signals.
- Squadron Leader Amrik Singh Ahluwalia (4778), General Duties (Navigator).
- Squadron Leader Annaswami Sridharan (4761), General Duties (Pilot).
- Squadron Leader Arnu Kanti Mukherjee (4416), General Duties (Pilot).
- Squadron Leader Avinash Wasudeo Lele (4885), General Duties (Pilot).
- Squadron Leader Charanjit Singh (4823), General Duties (Pilot).
- Squadron Leader Chittilemcherry Pathiyil Karunakaran Menon (5350), Technical Signals.
- Squadron Leader Dilip Shanker Jog (4608), General Duties (Pilot).
- Squadron Leader Donald Melvyn Conquest (4692), General Duties (Pilot).
- Squadron Leader Jagdish Chandra Varma (4251), General Duties (Pilot).
- Squadron Leader Jagdish Rai Bhaskar (5401), Technical/Engineering.
- Squadron Leader Joinder Singh (5167), Equipment.
- Squadron Leader Jyoti Prasad Gupta (4333), General Duties (Pilot).
- Squadron Leader Man Mohan Sinha (4408), General Duties (Pilot).
- Squadron Leader Michael Adrian Gurney (4900), General Duties (Pilot).
- Squadron Leader Nirmal Chandra Suri (4236), General Duties (Pilot).

- 28 Squadron Leader Padmaker Datt Deshpande (4600), General Duties (Pilot).
- 29 Squadron Leader Ramesh Sakhararam Benegal (4220), General Duties (Pilot).
- 30 Squadron Leader Rip Daman Singh Bhandari (4569), General Duties (Navigator).
- 31 Squadron Leader Sudhir Krishna Majumdar (2056), Administrative and Special Duties.
- 32 Squadron Leader Sundaram Kalyanasundaram (5613) Technical Engineering.
- 33 Squadron Leader Vaddadi Krishnamurti (4261), General Duties (Pilot).
- 34 Flight Lieutenant Ajai Kumar Brahmawar (5858), General Duties (Pilot).
- 35 Flight Lieutenant Arun Kumar Bahl (5330), General Duties (Pilot).
- 36 Flight Lieutenant Avtar Singh Uppal (5223), General Duties (Navigator).
- 37 Flight Lieutenant Darshan Singh Brar (6337), General Duties (Pilot).
- 38 Flight Lieutenant Daya Krishan Dhiman (5180), General Duties (Pilot).
- 39 Flight Lieutenant Debatosh Banerjee (5800), General Duties (Pilot).
- 40 Flight Lieutenant Guthi Gurusiddappa (7265), Medical.
- 41 Flight Lieutenant Henry Vivian D'Costa (6372), General Duties (Pilot).
- 42 Flight Lieutenant Inder Parkash Ahuja (5389), General Duties (Pilot).
- 43 Flight Lieutenant Janak Pratap Singh (5672), General Duties (Pilot).
- 44 Flight Lieutenant Madan Mohan Maini (5925), General Duties (Navigator).
- 45 Flight Lieutenant Mohan Murdeshwar (5178), General Duties (Pilot).
- 46 Flight Lieutenant Phillip Rajkumar (6748), General Duties (Pilot).
- 47 Flight Lieutenant Pratipaul Singh Panigar (6775), General Duties (Pilot).
- 48 Flight Lieutenant Purushottam Wasudeo Mukewar (6072), Technical/Engineering.
- 49 Flight Lieutenant Rabindra Chandra (5960), Technical/Signals.
- 50 Flight Lieutenant Srinivasapuram Krishnaswamy (6338), General Duties (Pilot).
- 51 Flight Lieutenant Sripati Kumar Varma (5894), Administrative and Special Duties.
- 52 Flight Lieutenant Suresh Shankarrao Dange (6762), General Duties (Pilot).
- 53 Flight Lieutenant Surya Kant Bhardwaj (6423), Administrative and Special Duties.
- 54 Flight Lieutenant Vishnu Murti Raina (5382), General Duties (Pilot).
- 55 Flying Officer Chandrakant Nijanand Bal (7401), General Duties (Pilot).
- 56 Flying Officer Chandranshu Girikant Pandya (6381), Technical Engineering.
- 57 Flying Officer Kumaran Tampi Sudhir (6668), Technical Engineering.
- 58 Flying Officer Michael McMahon (7399), General Duties (Pilot).
- 59 Flying Officer Olati Ramachandra Rao (6898), Technical/Engineering.
- 60 Flying Officer Ravi Kapoor (7481), General Duties (Navigator).
- 61 Flying Officer Tara Singh (7367), Technical/Engineering.
- 62 Flying Officer Venkatanarayanan Narahari Rao (7376), Technical/Engineering.
- 63 Flying Officer Yoginder Prakash (8168), General Duties (Pilot).
- 64 Pilot Officer Kalvanaraman Badri Narayanan (6825), Technical/Engineering.
- 65 Pilot Officer Shamsher Singh (7524), Administrative and Special Duties.
- 66 Pilot Officer Thirumillai Ramaswamy Janakiraman (7058), Technical Engineering.
- 67 11479 Master Warrant Officer Krishan Lal, Equipment/Assistant.
- 68 11750 Master Warrant Officer Randhir Singh Jagadev, Flt. I.
- 69 21703 Warrant Officer Dilip Kumar Roy Choudhury Flight Gunner
- 70 11724 Warrant Officer Mehanga Singh S.E.W
- 71 201358 Warrant Officer Surat Singh Yadav, Flight Engineer.
- 72 26600 Flight Sergeant Amrik Singh, Fitter Armourer
- 73 206127 Flight Sergeant Athikarathil Chona John, Radar Mechanic
- 74 41596 Flight Sergeant Chekhuri Singh, Fitter Armourer.
- 75 49524 Flight Sergeant Jangalashalli Ramachandra Rao, Equipment/Assistant.
- 76 29536 Flight Sergeant Kakarlmudi Ramakrishna Murti, Wireless Operator Mechanic I
- 77 30527 Flight Sergeant Kulwant Singh Gill, Flt. I
- 78 21125 Flight Sergeant Melangth Aravin Dakshan Menon, Electrician I.
- 79 18321 Flight Sergeant Narayan Appa Kashid, Fitter I
- 80 18753 Flight Sergeant Ranendra Kumar Bhattacharjee, Fitter I
- 81 21762 Flight Sergeant Shailesh Kumar Dutta, Fitter I
- 82 208809 Sergeant Ballachanda Nanjappa Medappa, Flight Gunner
- 83 400079 Sergeant Bansi Dhar Pal, Fitter II Airframe
- 84 15882 Sergeant Babriel Nathaniel Kuzur, Fitter II Airframe
- 85 203116 Sergeant Ganga Bishan Sharma, Fitter II Airframe.
- 86 204499 Sergeant Harminder Jit Singh, Fitter II E.
- 87 203842 Sergeant Hashmat Ullah, Fitter II A(I).
- 88 43922 Sergeant Ibrahim Kadir, WOM I.
- 89 35292 Sergeant Idiculla Verghese, Fitter Armourer.
- 90 208824 Sergeant Keshavan Gangadharan, Fitter II Airframe (I).
- 91 214941 Sergeant Mantharayil Varghese John, Fighter Plotter.
- 92 400032 Sergeant Nagendra Vikram, Fitter Armourer.
- 93 400323 Sergeant Narinder Kumar Nanda, Fitter Armourer.
- 94 203748 Sergeant Permeshwari Chand Dogra, Fitter Armourer.
- 95 400142 Sergeant Rabindra Nath Sen, Flight Gunner.
- 96 211822 Sergeant Raj Paul, Clerk GD.
- 97 209444 Sergeant Ram Kumar Dutta, Fitter II E.
- 98 400378 Sergeant Sadanand Shankar Joshi, Instrument Repairer I.
- 99 208808 Sergeant Thippanna Kothamangalam Muthanna, Flight Gunner.
- 100 223381 Corporal Anant Rukhabdas Mahajan, Fitter Armourer.
101. 214830 Corporal Anantha Mani, Radar Mechanic.
- 102 206002 Corporal Banke Bihari Lal Srivastava, Mechanical Transport Driver.
- 103 222639 Corporal Chopdekar Eknath Sadashiv, Fitter II Airframes.
104. 222887 Corporal Harbhajan Singh Chahal, Fitter Armourer I.
105. 223750 Corporal Iqbal Ahmad Lari, IAF Police.
- 106 207827 Corporal Jagtar Singh Athwal, Fitter II Airframes.
- 107 220858 Corporal Lakhan Mehta, Ach/GD.
- 108 209681 Corporal Lakshminarayananapuram Vishwanathan Venkateswaran, Fitter Armourer.
- 109 218198 Corporal Manik Lal Saha, Fitter II Airframes.
- 110 219018 Corporal Menonparambil Narayanan Nair, Armourer II.
111. 218732 Corporal Mundavalappil Narayanan, Fitter II Airframes.
- 112 217716 Corporal Padmanabhan Movara Kakkamvalli Nambiar, Fitter Armourer.
- 113 219499 Corporal Patanakkattil Kesavan Muralledharan, Electrician I.
- 114 47197 Corporal P Payanadan Mukundan, Electrician I.
- 115 222090 Corporal Puttutakku Arumuga Gounder Jankiraman Electrician I.
- 116 204731 Corporal Ramachar Rajagopala, Fitter II E.
117. 18495 Corporal Rattan Lal Sharma, M.T.D.
- 118 216013 Corporal Virasinh Dattatraya Aphale, Wireless Operator Mechanic I.
- 119 2<sup>c</sup>6066 Aircraftman Garud Bal Shridhar, Radar Operator.

**PLANNING COMMISSION**  
(Committee on Plan Projects)

**RESOLUTION**

New Delhi, the 26th October 1966

*Study Team on Tribal Development Programmes*

No. C.O.PP./Adm/16(1)/66.—Programmes for the welfare and development of scheduled tribes form an integral part of the five-year plans. Although significant progress has been achieved in several directions, it is important that during the Fourth and Fifth Plan periods the process of economic and social development among tribal communities should be greatly accelerated. Rising levels of well-being, growing economic opportunities and greater integration with the rest of the population are essential both for the welfare of tribal communities and the progress of the country as a whole.

2. Draft Outline of the Fourth Five Year Plan provides substantial resources for special programmes for the welfare of tribal communities and indicates a number of directions in which current development programmes should be re-oriented. In the light of past experience, it has become essential that the schemes formulated should enable the tribal communities to secure an adequate share in the benefits of general development programmes and speed up their economic and social advance. With the object of giving practical effect to these recommendations and assisting State Governments in evolving concrete schemes of development which are specially adapted to the needs and conditions of tribal areas, at the suggestion of the Planning Commission, the Committee on Plan Projects have set up a Study Team on Tribal Development Programmes composed of the following:

*Chairman*

(i) Shri P. Shilu Ao,  
Former Chief Minister of Nagaland.

*Members*

(ii) Shri L. M. Shrikant,  
Secretary, Bharatiya Adhikari Sewak Sangh,  
New Delhi.  
(iii) Shri B. Mehta, I.A.S.,  
Chief Secretary,  
Government of Rajasthan.

3. The Study Team will work in close cooperation with the Planning Commission, the Department of Social Welfare, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Department of Community Development and other Central Ministries concerned. In consultation with the Chief Ministers of States, the Study Team will co-opt one or more members in each State to function as members of the Team in relation to tribal development programmes in respect of that State.

4. The Study Team, thus enlarged, will acquaint itself first hand with the problems and needs of tribal communities in each State, appraise the working of tribal development programmes, specially during the Third Five Year Plan, and make detailed and specific recommendations regarding programmes of development to be carried out during the Fourth Five Year Plan. Particular emphasis will be given to devising measures for carrying the benefits of development in different sectors as effectively as possible to tribal communities and to the building up of the economy of tribal development blocks and tribal areas. The Study Team will give special attention to measures for strengthening the personnel and machinery for implementing programmes for tribal development in each State. It will also suggest steps for harnessing the leadership and institutions among tribal communities so as to ensure their fullest participation in the tasks of economic and social development.

5. The Study Team is expected to complete its work over a period of one year.

6. The headquarters of the Study Team will be at New Delhi.

7. ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. M. K. SWAMI, Under Secy. for Secy.

**MINISTRY OF INDUSTRY**

New Delhi, the 25th October 1966

No. 1-2/65-MEI.—In partial modification of the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering Resolution No. 1-2/63-MEI, dated the 25th March 1964, constituting a Panel for the Ball Bearing Industry, it has been decided that Dr. A. N. Ghosh, Director General, Indian Standards Institution, New Delhi, shall be a member of the Panel for the Ball Bearing Industry vice Shri Lal C. Verman, since retired.

I. V. CHUNKATH, Under Secy.

**RESOLUTION**

New Delhi, the 26th October 1966

No. LEI(A)-3(1)/66.—In the late Ministry of Industry and Supply Resolution No. LEI(A)-3(4)/64, dated the 17th

September 1965, Government of India, had set up a Panel for Instruments with the object of advising Government on the development and allied matters concerning various types of instruments. It has since been decided to expand the Panel to cover Electromedical and Optical Medical Instruments and define its terms of reference more precisely on the lines detailed below:—

- (i) to make a critical review of the progress of the instruments industry in the Third Plan period and to assess, in the light of current trends and on an up-to-date appraisal of the situation, the position reached by the end of the Third Plan period;
- (ii) to formulate developmental proposals (objectives, targets of demand in Nos. for each type of instruments, together with range and the standardisation possible, outlays and phasing, also indicating the important schemes/projects) for the Fourth Plan and wherever possible, to work out the perspective for a 15 year period 1966-1981;
- (iii) to recommend optimum sizes of the units;
- (iv) to work out the requirements of raw materials, power, fuel etc.
- (v) to estimate the number of technical personnel required; and
- (vi) to estimate the total investment and foreign exchange required.

2. The Panel will also consist of the following additional Members:—

1. The Director of Supplies,  
(Engineering),  
D.G.S. & D.
2. Shri G. B. Jakhetia,  
Deputy Director,  
Office of the Development Commissioner,  
SSI, New Delhi.  
or  
Shri M. S. Kathuria, Dy. Director in the same office.
3. Shri Hari Bhushan,  
Director (Engg.), Industries &  
Minerals Division, Planning Commission.
4. Dr. G. R. Toshniwal,  
Chairman,  
M/s. Toshniwal Bros. Pvt. Ltd.,  
Rival,  
Kacheri Road,  
Ajmer.
5. Shri C. L. Batra,  
M/s. Towa India Optics Pvt. Ltd.,  
4, Darya Ganj, P.O. Box 1685,  
Delhi-6.
6. Shri S. Malhotra,  
Deputy Secretary,  
Ministry of Defence,  
(Dept. of Defence Supplies),  
New Delhi.
7. Shri P. R. Ramakrishnan,  
Member of Parliament,  
Lok Sabha.

3. The term of the Panel will be two years in the first instance.

**ORDER**

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, and a copy of it together with a copy of the Resolution dated 17th September, 1965 cited in para 1 above be communicated to all concerned for general information.

D. R. SUNDARAM, Jt. Secy.

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION**

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 24th October 1966

**RESOLUTION**

No. F. 10-1/65-FAIT.—The Government of India have decided to amend the Resolution issued under this Department Notification No. F. 10-1/65-FAIT dated the 9th September, 1966, reconstituting the National Food and Agriculture Organisation Liaison Committee. The following sentence should be added at the end of the paragraph indicating the term of the non-official members in the reconstituted Committee:—

"Non-official members including members of Parliament already nominated to the Committee before its reconstitution will continue to serve in the Committee after its reconstitution for the unexpired period of their term".

2. Under the para *Members* the following should be inserted:—

"21. Secretary, Department of Agriculture".

The membership of the Committee will now be forty and Serial Nos. 21 to 39 in the above Resolution should be re-numbered as Serial Nos. 22 to 40.

**ORDER**

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that the Resolution may be communicated to all concerned.

J. C. MATHUR, Jt. Secy.

New Delhi, the 24th October 1966

No. 31-2/66-FY(P).—In partial modification of the Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture)'s Resolution No. 12-24/57-FY(D) dated the 1st April 1958, and in continuation of Food Department's Notification No. 12-3/63-FY(D) dated the 31st August 1963, the President is pleased to nominate Shri R. Madhavan Nayar, Managing Partner, Cochin Company Private Ltd., P.B. No 12, Thevara Road, Ernakulam-6 as a member of the Central Board of Fisheries.

No. 31-2/66 FY(PLAN).—In partial modification of the Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture)'s Resolution No. 12-24/57-FY(D) dated the 1st April 1958 and in continuation of Food Department's Notification No. 12-34/61-FY(D) dated 4/11/12-1962, the President is pleased to nominate the following persons as Members of the Central Board of Fisheries :—

1. Shri Ishwarabhai G. Desai,  
M.L.A., Surat.
2. Shri T. Hariharan,  
Member, Kerala Pradesh Congress Committee,  
Ernakulam.
3. Shri Bharat Misra,  
President, Ganjam District Central Fisheries Cooperative Union, Berhampur.

4. Shri T. Muthukannappan,  
Avvaikam, 3rd Street,  
Bhaktavatsalam Nagar, Adyar,  
Madras-20.

GODWIN ROSE, Jt. Secy.

**MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION**

**(Department of Labour and Employment)**

New Delhi, the 20th October 1966

No. E&P. 4/1/36/66.—In pursuance of rule 3(b) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education and in supersession of Notification of even number dated the 9th September 1966, the Government of India hereby appoints Shri N. D. Sundravadivelu, Joint Educational Adviser, Ministry of Education, as representative of the Ministry of Education on the Central Board for Workers' Education vice Shri L. O. Joshi, Joint Secretary, Bureau of School Education, Ministry of Education.

2 The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E&P. 4(24)/58, dated the 12th December 1958, published in the Gazette of India Part I, Section 1 dated December 20 1958/Agrahayana 29, 1880 as amended from time to time :—

for the entry—

"2 Shri L. O. Joshi,  
Joint Secretary,  
Bureau of School Education,  
Ministry of Education,  
New Delhi"

The following entry shall be substituted :—

"2. Shri N. D. Sundravadivelu,  
Joint Educational Adviser,  
Ministry of Education,  
New Delhi".

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.